

The Indian Contract Act, 1872

HINDI

₹469



BY ADVOCATE AMIT ARYA

BARE ACT, 2026

HINDI LAW SHORTS

About the Book

The Indian Contract Act, 1872 forms the foundation of contract law in India and is an essential subject for every law student and judicial aspirant. From the formation and enforceability of contracts to indemnity, guarantee, bailment, pledge, and agency, a clear understanding of this Act is indispensable.

This book, "The Indian Contract Act, 1872 – Edition 2026", has been carefully designed for students who seek conceptual clarity, practical understanding, and exam-oriented preparation, especially those studying in the Hindi medium but appearing in competitive and university examinations.

Rather than merely reproducing the Bare Act, this eBook explains each important provision in a simple, structured, and student-friendly manner, supported by illustrations, practical examples, and clear reasoning. The aim is to help readers not only memorize sections but also understand their legal application and interpretation.

Who Should Read This Book?

This book is especially useful for:

- LLB, LL.M. students OR any accounts student
- Judicial Services aspirants (Civil Judge, APO, RJS, DJS, etc.)
- CLAT-PG and other law entrance candidates
- Law interns and young practitioners
- Students who find the language of the Bare Act difficult to understand

Key Features of the Book

- ✓ Section-wise explanation of the Indian Contract Act, 1872
- ✓ Simple and clear language with practical illustrations
- ✓ Judiciary and exam-oriented presentation
- ✓ Focus on conceptual understanding rather than rote learning
- ✓ Structured content for quick revision
- ✓ Prepared keeping Hindi-medium learners in mind

What You Will Gain from This Book

- Strong conceptual foundation of Contract Law
- Improved analytical and answer-writing skills
- Ability to apply legal provisions to real-life situations
- Balanced understanding of theory and practice

Purpose of This Book

The purpose of this book is not merely to help students pass examinations, but to enable them to understand how contract law operates in practice.

Hindi Law Shorts is committed to making legal education simple, accessible, and reliable, especially for students who struggle due to complex legal language.

Author: Advocate Amit Arya

Publisher: Hindi Law Shorts

Edition: 2026

Website: www.HindiLawShorts.in

प्रस्तावना (Preface)

भारतीय विधि व्यवस्था में The Indian Contract Act, 1872 का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह अधिनियम अनुबंधों, दायित्वों, गारंटी, जमानत (Surety), Bailment, Pledge तथा Agency जैसे मूलभूत कानूनी सिद्धांतों की आधारशिला है। दैनिक जीवन से लेकर व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक लेन-देन तक, प्रत्येक कानूनी संबंध किसी न किसी रूप में इस अधिनियम से जुड़ा हुआ है।

इस पुस्तक “The Indian Contract Act, 1872” (संस्करण 2026) को विशेष रूप से LLB, LL.M., Judiciary, APO, CLAT-PG एवं अन्य विधि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जटिल कानूनी भाषा को सरल हिंदी में, अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि छात्र न केवल धाराओं को याद करें बल्कि उन्हें सही रूप में समझ भी सकें।

इस पुस्तक की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- प्रत्येक धारा की सरल एवं स्पष्ट हिंदी व्याख्या
- Illustrations और उदाहरणों के माध्यम से गहन समझ
- Exam-oriented approach, विशेष रूप से Judiciary परीक्षाओं हेतु
- Bare Act और Practical Understanding के बीच संतुलन
- छात्रों की सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई भाषा

यह पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अंग्रेजी भाषा के कारण कानूनी विषयों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि “Section-wise clarity” के साथ “Concept-wise understanding” विकसित हो।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों को Contract Law की मजबूत नींव प्रदान करेगी और उनकी परीक्षा-तैयारी तथा व्यावहारिक विधिक समझ—दोनों में सहायक सिद्ध होगी।

पाठकों से प्राप्त सुझावों एवं रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत है, जिन्हें आगामी संस्करणों में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।

एडवोकेट अमित आर्य

(लेखक)

Hindi Law Shorts

(प्रकाशक)

संस्करण: 2026

Amit Arya
(Disclaimer)

यह पुस्तक *The Indian Contract Act, 1872* के प्रावधानों को शैक्षणिक (educational) उद्देश्य से सरल, स्पष्ट और परीक्षा-उपयोगी भाषा में समझाने के लिए तैयार की गई है। इस पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री का उद्देश्य विधि विद्यार्थियों, न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों एवं विधि में रुचि रखने वाले पाठकों को कानून की समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

यह पुस्तक किसी भी प्रकार की विधिक सलाह (legal advice) प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। पाठकों को किसी भी वास्तविक मामले, विवाद या कानूनी समस्या के समाधान हेतु इस पुस्तक की सामग्री पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

यद्यपि इस पुस्तक की सामग्री को तैयार करने में पूर्ण सावधानी और परिश्रम किया गया है, फिर भी कानून समय-समय पर संशोधित होता रहता है, न्यायालयों के निर्णय बदल सकते हैं, तथा व्याख्याओं में भिन्नता संभव है। लेखक एवं प्रकाशक किसी भी त्रुटि, चूक, अद्यतन की कमी या इस पुस्तक की सामग्री के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

इस पुस्तक का कोई भी भाग, लेखक एवं प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, किसी भी रूप में—पूर्णतः या आंशिक रूप से—प्रकाशित, पुनरुत्पादित, संग्रहित या प्रसारित नहीं किया जा सकता।

यह पुस्तक केवल शैक्षणिक एवं अध्ययन प्रयोजनों के लिए है

1. Copyright Page

© 2026 Advocate Amit Arya

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of the author and publisher, except for brief quotations used for academic, review, or research purposes.

Title: The Indian Contract Act, 1872

Author: Advocate Amit Arya

Edition: 2026

Publisher: Hindi Law Shorts

Language: Hindi (with legal English terms where required)

This book is published for educational and academic purposes only.

2. Publisher Information

Published by:

Hindi Law Shorts

Hindi Law Shorts is an educational legal platform dedicated to simplifying Indian laws for students, judiciary aspirants, and legal professionals. The platform focuses on exam-oriented explanations, real-life illustrations, and concept clarity in simple language.

Official Platforms:

Website: www.HindiLawShorts.in

YouTube | Instagram | Facebook | Telegram | LinkedIn: [hindilawshorts](https://www.instagram.com/hindilawshorts)

3. About the Author

Advocate Amit Arya is a practising advocate and legal educator, known for simplifying complex legal provisions into easy-to-understand language for students and judiciary aspirants.

He is the founder of Hindi Law Shorts, a legal education initiative focused on:

- Judiciary examination preparation
- Simplified Bare Act explanations
- Exam-oriented legal notes and MCQs
- Practical understanding of Indian laws

With years of experience in legal education and content creation, the author aims to bridge the gap between bare law and real understanding, especially for Hindi-medium students.

4. Purpose of This Book

This book has been written with a clear objective:

- To explain *The Indian Contract Act, 1872* in simple and precise Hindi
- To help students understand not just the law, but its practical application
- To remove fear and confusion associated with Contract Law

Each section has been explained in a structured manner, focusing on:

- Legal concept clarity
- Bare Act language decoding
- Real-life illustrations
- Exam-relevant interpretation

5. How to Use This Book (Important for Students)

To get maximum benefit from this book, readers are advised to:


- First read the section explanation carefully
- Then understand the examples provided with each section
- Relate the provision with real-life contractual situations
- Use the book for revision before exams
- Combine this book with Bare Act reading for best results

This book is designed to be useful for:

- Judiciary aspirants
- Law students (LLB / LLM)
- Legal educators
- Anyone interested in understanding contract law

6. Edition Note (2026)

This 2026 Edition has been carefully updated and structured to suit current examination trends and academic requirements. The explanations are aligned with commonly asked concepts in judicial service examinations and law school assessments.



Amit Arya
Hindi Law Shorts

THE INDIAN CONTRACT ACT, 1872

PRELIMINARY

1. Short title
2. Interpretation clause

CHAPTER I

OF THE COMMUNICATION, ACCEPTANCE AND REVOCATION OF PROPOSALS

3. Communication, acceptance and revocation of proposals
4. Communication when complete
5. Revocation of proposals and acceptances
6. Revocation how made
7. Acceptance must be absolute
8. Acceptance by performing conditions, or receiving consideration
9. Promises, express or implied

CHAPTER II

OF CONTRACTS, VOIDABLE CONTRACTS, AND VOID AGREEMENTS

10. What agreements are contracts
11. Who are competent to contract
12. What is a sound mind for the purposes of contracting
13. "Consent" defined
14. "Free consent" defined
15. "Coercion" defined
16. "Undue influence" defined
17. "Fraud" defined
18. "Misrepresentation" defined
19. Voidability of agreements without free consent
 - 19A. Power to set aside contract induced by undue influence
20. Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact
21. Effect of mistakes as to law
22. Contract caused by mistake of one party as to matter of fact
23. What considerations and objects are lawful and what not

(VOID AGREEMENTS)

24. Agreements void, if considerations and objects unlawful in part
25. Agreement, if made without consideration, is void
26. Agreement in restraint of marriage, void
27. Agreement in restraint of trade, void
28. Agreement in restraint of legal proceedings, void
29. Agreements void for uncertainty
30. Agreements by way of wager, void

CHAPTER III

OF CONTINGENT CONTRACTS

31. "Contingent contract" defined
32. Enforcement of contracts contingent on an event happening
33. Enforcement of contracts contingent on an event not happening
34. When event on which contract is contingent to be deemed impossible, if it is the future conduct of a living person
35. When contracts become void, which are contingent on happening of specified event within fixed time
36. Agreements contingent on impossible events, void

CHAPTER IV

OF THE PERFORMANCE OF CONTRACTS CONTRACTS WHICH MUST BE PERFORMED

37. Obligations of parties to contracts
38. Effect of refusal to accept offer of performance
39. Effect of refusal of party to perform promise wholly

BY WHOM CONTRACTS MUST BE PERFORMED

40. Person by whom promise is to be performed
41. Effect of accepting performance from third person
42. Devolution of joint liabilities
43. Devolution of joint rights
44. Effect of release of one joint promisor
45. Devolution of joint rights

TIME AND PLACE FOR PERFORMANCE

46. Time for performance of promise, where no application is to be made and no time is specified
47. Time and place for performance of promise, where time is specified and no application to be made
48. Application for performance on certain day to be at proper time and place
49. Place for performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance
50. Performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee

PERFORMANCE OF RECIPROCAL PROMISES

51. Promisor not bound to perform, unless reciprocal promisee ready and willing to perform
52. Order of performance of reciprocal promises
53. Liability of party preventing event on which contract is to take effect
54. Effect of default as to the promise which should be performed, in contract consisting of reciprocal promises
55. Effect of failure to perform at fixed time, in contract in which time is essential
56. Agreement to do impossible act
57. Reciprocal promise to do things legal, and also other things illegal
58. Alternative promise, one branch being illegal

APPROPRIATION OF PAYMENTS

59. Application of payment where debt to be discharged is indicated
60. Application of payment where debt to be discharged is not indicated
61. Application of payment where neither party appropriates

CONTRACTS WHICH NEED NOT BE PERFORMED

62. Effect of novation, rescission and alteration of contract
63. Promisee may dispense with or remit performance of promise
64. Consequences of rescission of a voidable contract
65. Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void
66. Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract
67. Effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance

CHAPTER V

OF CERTAIN RELATIONS RESEMBLING THOSE CREATED BY CONTRACT

68. Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting, or on his account
69. Reimbursement of person paying money due by another, in payment of which he is interested
70. Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act
71. Responsibility of finder of goods
72. Liability of person to whom money is paid, or thing delivered by mistake or under coercion

CHAPTER VI

OF THE CONSEQUENCES OF BREACH OF CONTRACT

73. Compensation for loss or damage caused by breach of contract
74. Compensation for breach of contract where penalty stipulated for
75. Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation

CHAPTER VII

(Sections 76–123 [Sale of Goods] – Repealed by the Sale of Goods Act, 1930)

CHAPTER VIII

OF INDEMNITY AND GUARANTEE

124. "Contract of indemnity" defined
125. Rights of indemnity-holder when sued
126. "Contract of guarantee", "surety", "principal debtor" and "creditor"
127. Consideration for guarantee
128. Surety's liability
129. Continuing guarantee
130. Revocation of continuing guarantee
131. Revocation of continuing guarantee by surety's death
132. Liability of two persons, primarily liable, not affected by arrangement between them that one shall be surety on other's default
133. Discharge of surety by variance in terms of contract
134. Discharge of surety by release or discharge of principal debtor
135. Discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue, principal debtor
136. Surety not discharged when agreement made with third person to give time to principal debtor
137. Creditor's forbearance to sue does not discharge surety
138. Release of one co-surety does not discharge others
139. Discharge of surety by creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy

- 140. Rights of surety on payment or performance
- 141. Surety's right to benefit of creditor's securities
- 142. Guarantee obtained by misrepresentation, invalid
- 143. Guarantee obtained by concealment, invalid
- 144. Guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins
- 145. Implied promise to indemnify surety
- 146. Co-sureties liable to contribute equally
- 147. Liability of co-sureties bound in different sums

CHAPTER IX OF BAILMENT

- 148. "Bailment", "bailor" and "bailee" defined
- 149. Delivery to bailee how made
- 150. Bailor's duty to disclose faults in goods bailed
- 151. Care to be taken by bailee
- 152. Bailee when not liable for loss, etc, of thing bailed
- 153. Termination of bailment by bailee's act inconsistent with conditions
- 154. Liability of bailee making unauthorised use of goods bailed
- 155. Effect of mixture, with bailor's consent, of his goods with bailee's
- 156. Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods can be separated
- 157. Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods cannot be separated
- 158. Repayment by bailor, of necessary expenses
- 159. Restoration of goods lent gratuitously
- 160. Return of goods bailed on expiration of time or accomplishment of purpose
- 161. Bailee's responsibility when goods are not duly returned
- 162. Termination of gratuitous bailment by death
- 163. Bailee entitled to increase or profit from goods bailed
- 164. Bailor's responsibility to bailee
- 165. Bailment by several joint owners
- 166. Bailee not responsible on redelivery to bailor without title
- 167. Right of third person claiming goods bailed
- 168. Right of finder of goods; may sue for specified reward offered
- 169. When finder of thing commonly on sale may sell it
- 170. Bailee's particular lien
- 171. General lien of bankers, factors, wharfingers, attorneys and policy brokers

BAILMENT OF PLEDGES

- 172. "Pledge", "pawnor", and "pawnee" defined
- 173. Pawnee's right of retainer
- 174. Pawnee not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged—Presumption in case of subsequent advances
- 175. Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred
- 176. Pawnee's right where pawnor makes default
- 177. Defaulting pawnor's right to redeem
- 178. Pledge by mercantile agent
- 178A. Pledge by person in possession under voidable contract
- 179. Pledge where pawnor has only a limited interest

SUITS BY BAILEES OR BAILORS AGAINST WRONG-DOERS

- 180. Suit by bailor or bailee against wrong-doer
- 181. Appointment of relief or compensation obtained by such suits

CHAPTER X
AGENCY

APPOINTMENT AND AUTHORITY OF AGENTS

- 182. "Agent" and "principal" defined
- 183. Who may employ agent
- 184. Who may be an agent
- 185. Consideration not necessary
- 186. Agent's authority may be express or implied
- 187. Definitions of express and implied authority
- 188. Extent of agent's authority
- 189. Agent's authority in an emergency

SUB-AGENTS

- 190. When agent cannot delegate
- 191. "Sub-agent" defined
- 192. Representation of principal by sub-agent properly appointed
- 193. Agent's responsibility for sub-agent appointed without authority
- 194. Relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency
- 195. Agent's duty in naming such person

RATIFICATION

- 196. Right of person as to acts done for him without his authority—Effect of ratification
- 197. Ratification may be expressed or implied
- 198. Knowledge requisite for valid ratification
- 199. Effect of ratifying unauthorised act forming part of a transaction
- 200. Ratification of unauthorised act cannot injure third person

REVOCAION OF AUTHORITY

- 201. Termination of agency
- 202. Termination of agency, where agent has an interest in subject-matter
- 203. When principal may revoke agent's authority
- 204. Revocation where authority has been partly exercised
- 205. Compensation for revocation by principal, or renunciation by agent
- 206. Notice of revocation or renunciation
- 207. Revocation and renunciation may be expressed or implied
- 208. When termination of agent's authority takes effect as to agent, and as to third persons
- 209. Agent's duty on termination of agency by principal's death or insanity
- 210. Termination of sub-agent's authority

AGENT'S DUTY TO PRINCIPAL

- 211. Agent's duty in conducting principal's business
 - 212. Skill and diligence required from agent
 - 213. Agent's accounts
 - 214. Agent's duty to communicate with principal
 - 215. Right of principal when agent deals, on his own account, in business of agency without principal's consent

- 216. Principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account in business of agency
- 217. Agent's right of retainer out of sums received on principal's account
- 218. Agent's duty to pay sums received for principal
- 219. When agent's remuneration becomes due
- 220. Agent not entitled to remuneration for business misconducted
- 221. Agent's lien on principal's property

PRINCIPAL'S DUTY TO AGENT

- 222. Agent to be indemnified against consequences of lawful acts
- 223. Agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith
- 224. Non-liability of employer of agent to do a criminal act
- 225. Compensation to agent for injury caused by principal's neglect

EFFECT OF AGENCY ON CONTRACTS WITH THIRD PERSONS

- 226. Enforcement and consequences of agent's contracts
- 227. Principal how far bound, when agent exceeds authority
- 228. Principal not bound when excess of agent's authority is not separable
- 229. Consequences of notice given to agent
- 230. Agent cannot personally enforce, nor be bound by, contracts on behalf of principal
- 231. Rights of parties to a contract made by agent not disclosed
- 232. Performance of contract with agent supposed to be principal
- 233. Right of person dealing with agent personally liable
- 234. Consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable
- 235. Liability of pretended agent
- 236. Person falsely contracting as agent, not entitled to performance
- 237. Liability of principal inducing belief that agent's unauthorised acts were authorised
- 238. Effect, on agreement, of misrepresentation or fraud by agent



Indian Contract Act, 1872 Preliminary

Section 1 - Short Title, Extent and Commencement

इस कानून का नाम Indian Contract Act, 1872 है। यह Act पूरे भारत में लागू होता है। यह कानून 1 September 1872 से लागू हुआ।

इस Act के लागू होने से पहले जो laws repealed हुए थे, उनसे अलग किसी valid custom, usage या valid contract पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ है कि contract से संबंधित मुख्य और मूल कानून Indian Contract Act, 1872 ही है।

Section 2 - Interpretation Clause

Section 2 में Act में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की definitions दी गई हैं।

Section 2(a) Proposal

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी willingness बताता है कि वह कोई काम करेगा या नहीं करेगा, ताकि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे सके, तो उसे proposal कहा जाता है।

Example

A कहता है कि वह अपनी bike 50,000 रुपये में बेचेगा। यह proposal है।

Section 2(b) Acceptance

जिस व्यक्ति को proposal दिया गया है, यदि वह उस proposal को स्वीकार कर लेता है, तो उसे acceptance कहा जाता है।

Proposal और acceptance मिलकर promise बनाते हैं।

Section 2(c) Promisor and Promisee

1. Promisor वह व्यक्ति है जो proposal करता है।
2. Promisee वह व्यक्ति है जो proposal को accept करता है।

Example

A bike बेचने का प्रस्ताव करता है तो A promisor है। B उस proposal को स्वीकार करता है तो B promisee है।

Section 2(d) Consideration

जब promisor की इच्छा पर promisee या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, कुछ करने से रुकता है, या कुछ करने का वादा करता है, तो उसे consideration कहा जाता है।

Example

Bike के बदले 50,000 रुपये देना consideration है।

Section 2(e) Agreement

हर promise या promises का समूह जो एक-दूसरे के लिए consideration बनते हैं, agreement कहलाता है।

Section 2(f) Reciprocal Promises

जब दोनों पक्ष एक-दूसरे से कुछ करने का वादा करते हैं, तो उन्हें reciprocal promises कहा जाता है।

Example

A bike देने का वादा करता है और B पैसे देने का वादा करता है।

Section 2(g) Void Agreement

ऐसा agreement जो कानून द्वारा enforce नहीं किया जा सकता, void agreement कहलाता है।

Example

जुआ खेलने का agreement।

Section 2(h) Contract

ऐसा agreement जो कानून द्वारा enforce किया जा सकता है, contract कहलाता है। इसका अर्थ है कि हर contract agreement होता है, लेकिन हर agreement contract नहीं होता।

Section 2(i) Voidable Contract

ऐसा contract जो एक पक्ष की इच्छा पर enforceable होता है लेकिन दूसरे पक्ष की इच्छा पर नहीं, voidable contract कहलाता है।

Section 2(j) Void Contract

यदि कोई contract शुरू में valid और enforceable था, लेकिन बाद में किसी कारण से enforceable नहीं रहता, तो वह उस समय से void contract बन जाता है।

Example

यदि contract fraud या coercion के कारण enforceable नहीं रहता, तो वह void हो सकता है।

Communication, Acceptance & Revocation of Proposals

Section 3 – Communication, Acceptance & Revocation

Proposal देना, proposal accept करना और proposal या acceptance को वापस लेना इन तीनों कार्यों को communication के माध्यम से किया जाता है। यह communication किसी act से या omission से हो सकती है, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि सामने वाले तक सूचना पहुँचाने की intention थी।

Example

Letter, post, telegram, email या conduct के माध्यम से proposal, acceptance और revocation communicate किए जा सकते हैं।

Section 4 - Communication when complete

Section 4 यह बताता है कि proposal, acceptance और revocation की communication कब complete मानी जाएगी।

Communication of proposal

Proposal की communication तब complete होती है जब जिस व्यक्ति को proposal दिया गया है उसे उसकी knowledge हो जाए।

Example

A B को letter द्वारा offer भेजता है। जब B को letter मिल जाता है और उसे offer का knowledge हो जाता है तब proposal की communication complete मानी जाती है।

Communication of acceptance

Acceptance की communication दो अलग-अलग स्थितियों में complete मानी जाती है।

Proposer के विरुद्ध

Acceptance proposer के विरुद्ध तब complete होती है जब acceptance acceptor के control से बाहर चली जाती है।

Example

यदि B acceptance letter post box में डाल देता है या email send कर देता है, तो acceptance A के विरुद्ध complete मानी जाती है।

Acceptor के विरुद्ध

Acceptance acceptor के विरुद्ध तब complete होती है जब acceptance proposer को प्राप्त हो जाती है और उसे इसकी knowledge हो जाती है।

Example

जब acceptance letter A को मिल जाता है तब acceptance B के विरुद्ध complete मानी जाती है।

Communication of revocation

Revocation की communication दो स्थितियों में complete होती है।

1. Revocation करने वाले के विरुद्ध
2. Revocation करने वाले के विरुद्ध communication तब complete होती है जब revocation का message उसके control से बाहर चला जाता है।

जिस व्यक्ति को revocation भेजा गया है उसके विरुद्ध, Revocation उस व्यक्ति के विरुद्ध तब complete होती है जब उसे revocation का knowledge हो जाता है।

Illustrations

1. A letter द्वारा B को अपना house बेचने का offer देता है। जब B को letter मिल जाता है तब proposal complete होता है।
2. B letter द्वारा acceptance भेजता है। A के विरुद्ध acceptance तब complete होती है जब letter post किया जाता है और B के विरुद्ध तब complete होती है जब letter A को मिल जाता है।
3. A telegram द्वारा proposal revoke करता है। A के विरुद्ध revocation तब complete होती है जब telegram भेजा जाता है और B के विरुद्ध तब complete होती है जब telegram B को मिल जाता है।
4. B telegram द्वारा acceptance revoke करता है। B के विरुद्ध revocation तब complete होती है जब telegram भेजा जाता है और A के विरुद्ध तब complete होती है जब telegram A को मिल जाता है।

Section 5 - Revocation of proposal and acceptance

Revocation का अर्थ है proposal या acceptance को वापस लेना।

Revocation of proposal

Proposal को acceptance की communication proposer के विरुद्ध complete होने से पहले कभी भी revoke किया जा सकता है। उसके बाद proposal revoke नहीं किया जा सकता।

Revocation of acceptance

Acceptance को acceptance की communication acceptor के विरुद्ध complete होने से पहले कभी भी revoke किया जा सकता है। उसके बाद acceptance revoke नहीं किया जा सकता।

Example

A letter द्वारा B को offer देता है और B letter द्वारा acceptance भेजता है।

A उस समय तक offer revoke कर सकता है जब तक B का acceptance letter post नहीं हुआ है। letter post हो जाने के बाद A offer revoke नहीं कर सकता।

B acceptance को उस समय तक revoke कर सकता है जब तक acceptance letter A को प्राप्त नहीं हुआ है। A को letter मिल जाने के बाद B acceptance revoke नहीं कर सकता।

Section 6 - Revocation how made

Proposal चार तरीकों से revoke हो सकता है।

Revocation by notice

Proposer सामने वाले व्यक्ति को सूचना देकर अपना offer वापस ले सकता है।

Example

A B को house बेचने का offer देता है। बाद में A B को message भेजता है कि वह offer वापस ले रहा है। इससे offer revoke हो जाता है।

Lapse of time

यदि offer में समय निश्चित किया गया है तो उस समय के समाप्त होने पर offer समाप्त हो जाता है। यदि कोई समय निर्धारित नहीं है तो reasonable time के बाद offer समाप्त हो जाता है।

Example

A B से कहता है कि वह पाँच दिन के भीतर उत्तर दे। यदि B दस दिन बाद acceptance देता है तो offer समाप्त हो चुका होता है।

Failure of condition precedent

यदि acceptance से पहले कोई condition रखी गई थी और वह condition पूरी नहीं होती है तो offer revoke माना जाता है।

Example

A B से कहता है कि यदि B bank loan प्राप्त कर ले तो वह car बेच देगा। यदि B loan प्राप्त नहीं कर पाता है तो offer समाप्त हो जाता है।

Death or insanity of proposer

यदि proposer की मृत्यु या insanity हो जाती है और acceptor को acceptance से पहले इसकी जानकारी मिल जाती है तो offer समाप्त हो जाता है।

Example

A B को offer देता है। acceptance से पहले A की मृत्यु हो जाती है और B को इसकी जानकारी मिल जाती है। ऐसी स्थिति में offer समाप्त हो जाता है।

Section 7 - Acceptance must be absolute

Acceptance तभी valid मानी जाएगी जब वह absolute और unqualified हो। इसका अर्थ है कि offer को पूरी तरह उसी रूप में स्वीकार किया जाए जैसा वह दिया गया है। यदि acceptance में कोई नया condition, modification या change जोड़ दिया जाता है तो वह acceptance नहीं बल्कि counter offer माना जाता है।

Acceptance उस manner में होनी चाहिए जो proposer ने offer में निर्धारित किया है। यदि offer में acceptance का तरीका बताया गया है तो उसी तरीके से acceptance देनी होगी। यदि कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है तो acceptance किसी सामान्य और उचित तरीके से दी जा सकती है।

यदि acceptance निर्धारित तरीके से नहीं दी गई है लेकिन proposer उस पर आपत्ति नहीं करता, तो acceptance valid मानी जाएगी।

Example

A कहता है कि वह अपनी bike 50,000 रुपये में बेचेगा। B कहता है कि वह bike 45,000 रुपये में खरीदेगा। यह acceptance नहीं बल्कि counter offer है।

Example

A कहता है कि acceptance email से भेजना। B WhatsApp के माध्यम से acceptance भेज देता है। यदि A इस पर कोई objection नहीं करता तो acceptance valid मानी जाएगी।

Section 8 - Acceptance by performing conditions or receiving consideration

यदि कोई व्यक्ति offer की शर्तों को पूरा कर देता है या consideration स्वीकार कर लेता है, तो इसे acceptance माना जाता है भले ही उसने शब्दों में acceptance व्यक्त न की हो। इसे acceptance by conduct कहा जाता है।

Example

A newspaper में घोषणा करता है कि जो व्यक्ति उसका खोया हुआ mobile ढूँढकर देगा उसे 5,000 रुपये reward मिलेगा। B mobile ढूँढकर A को दे देता है। यह act offer की condition को पूरा करता है, इसलिए acceptance complete मानी जाएगी।

Section 9 - Promises express and implied

Promise दो प्रकार के हो सकते हैं, express promise और implied promise।

1. Express promise वह होता है जिसमें offer और acceptance शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। यह oral या written दोनों हो सकते हैं।
2. Implied promise वह होता है जिसमें offer और acceptance शब्दों में व्यक्त नहीं किए जाते बल्कि parties के conduct या behaviour से समझ में आते हैं।

Example

A कहता है कि वह B को 10,000 रुपये देगा। यह express promise है।

Example

कोई व्यक्ति bus में चढ़कर यात्रा करता है और ticket लेता है। यह bus fare देने का implied promise है।

Chapter II

Of Contracts, Voidable Contracts and Void Agreements

Section 10 - What agreements are contracts

कोई agreement contract तभी बनता है जब कुछ आवश्यक शर्तें पूरी हों। इन शर्तों में free consent, competent parties, lawful consideration और lawful object शामिल हैं। इसके अतिरिक्त agreement ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कानून ने expressly void घोषित किया हो।

कुछ contracts के लिए कानून में लिखित रूप या registration की आवश्यकता भी हो सकती है। Section 10 उन विशेष कानूनों को प्रभावित नहीं करता।

Example

A B से agreement करता है कि वह B को चोरी करने के लिए पैसे देगा। यह agreement illegal object पर आधारित है इसलिए यह contract नहीं बनेगा।

Section 11 - Who are competent to contract

कोई व्यक्ति contract करने के लिए competent तब माना जाता है जब वह majority की आयु प्राप्त कर चुका हो, sound mind का हो और किसी कानून द्वारा contract करने से disqualified न हो।

भारत में majority की आयु सामान्यतः 18 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति minor है, unsound mind का है या किसी कानून द्वारा disqualified है तो वह valid contract नहीं कर सकता।

Example

यदि किसी minor ने agreement किया है तो वह contract enforceable नहीं होगा।

Section 12 - Sound mind for the purpose of contract

किसी व्यक्ति को contract करने के लिए sound mind का होना आवश्यक है। sound mind का अर्थ है कि contract करते समय व्यक्ति उस contract की nature को समझने में सक्षम हो और यह समझ सके कि उससे उसके हित या हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

Sound mind का परीक्षण contract के समय किया जाता है, न कि हमेशा के लिए।

यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः unsound mind का है लेकिन किसी समय वह sound mind में होता है तो उस समय किया गया contract valid होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः sound mind का है लेकिन किसी समय वह unsound mind में है तो उस समय किया गया contract valid नहीं होगा।

Example

एक मानसिक रोगी व्यक्ति यदि अपने lucid interval में contract करता है तो वह contract valid हो सकता है।

Example

कोई व्यक्ति शराब के नशे में या तेज बुखार में contract की शर्तों को समझ नहीं पा रहा है और उस समय contract करता है तो वह contract valid नहीं माना जाएगा।



Section 13 - Consent defined

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर और उसी अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे consent कहा जाता है। इसे consensus ad idem भी कहा जाता है।

Example

A कहता है कि वह अपनी bike 50,000 रुपये में बेचेगा। B कहता है कि वह वही bike 50,000 रुपये में खरीदेगा। यहाँ दोनों एक ही बात को एक ही अर्थ में समझ रहे हैं, इसलिए consent मौजूद है। यदि A bike के बारे में बात कर रहा है और B car समझ रहा है तो consent नहीं माना जाएगा।

Section 14 - Free consent defined

Consent तब free मानी जाती है जब वह coercion, undue influence, fraud, misrepresentation या mistake के कारण प्राप्त न की गई हो। यदि consent इन कारणों में से किसी के प्रभाव में प्राप्त की गई है तो वह free consent नहीं मानी जाएगी।

एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यदि इन कारणों के बिना consent दी ही नहीं जाती, तो consent free नहीं मानी जाएगी।

Example

A ने B को धमकाकर contract sign करवाया।

यहाँ consent मौजूद है लेकिन free consent नहीं है। इस स्थिति में contract voidable हो जाएगा।

Section 15 - Coercion defined

Coercion का अर्थ है ऐसा कोई कार्य करना या करने की धमकी देना जो Indian Penal Code द्वारा forbidden है, या किसी व्यक्ति की property को unlawful तरीके से रोकना, ताकि किसी व्यक्ति को contract करने के लिए मजबूर किया जा सके।

यह आवश्यक नहीं है कि वह कार्य उस स्थान पर IPC के अंतर्गत punishable हो या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को contract करने के लिए मजबूर करना हो।

Example

A समुद्र में एक English ship पर B को धमकाकर agreement sign करवाता है और बाद में भारत में B पर contract breach का case करता है। यह coercion है और contract voidable होगा।

Section 16 - Undue influence

Undue influence तब माना जाता है जब parties के बीच ऐसा संबंध हो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर dominate करने की स्थिति में हो और वह उस स्थिति का उपयोग करके unfair advantage प्राप्त करे।

यह प्रभाव सामान्यतः मानसिक या भावनात्मक होता है, physical नहीं।

Undue influence विशेष रूप से उन स्थितियों में माना जाता है जहाँ parties के बीच fiduciary relationship हो, जैसे parent और child, doctor और patient, lawyer और client, trustee और beneficiary।

यह भी undue influence माना जा सकता है जब किसी व्यक्ति की mental capacity उम्र, बीमारी या distress के कारण प्रभावित हो और दूसरी party उस स्थिति का लाभ उठाकर contract करवा ले।

यदि यह सिद्ध हो जाए कि एक party dominant position में थी और transaction unconscionable दिखाई देता है, तो burden of proof उस dominant party पर होगा कि contract undue influence के कारण नहीं हुआ था।

Illustration

एक पिता अपने बेटे को पैसे उधार देता है। जब बेटा major हो जाता है तो पिता parental influence का उपयोग करके उससे वास्तविक loan से कहीं अधिक राशि का bond लिखवा लेता है। यह undue influence माना जाएगा।

एक बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति से उसका doctor अत्यधिक शुल्क का agreement करवा लेता है। यह fiduciary relationship का दुरुपयोग है और undue influence माना जाएगा।

एक moneylender अपने कर्जदार को बहुत कठोर शर्तों पर नया loan देता है। यदि transaction unconscionable है तो burden moneylender पर होगा कि वह सिद्ध करे कि undue influence नहीं था।

Illustration where undue influence is not present

A bank से loan मांगता है। market की स्थिति के कारण bank उँची interest rate पर loan देने को तैयार होता है और A स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ undue influence नहीं माना जाएगा क्योंकि transaction voluntary है और domination का तत्व मौजूद नहीं है।

Section 17 - Fraud

Fraud तब होता है जब कोई party जानबूझकर और धोखा देने की नीयत से किसी दूसरे व्यक्ति को contract करने के लिए गलत कार्य करती है या गलत जानकारी देती है।

Section 17(1)
False statement

यदि कोई व्यक्ति जानता है कि कोई तथ्य गलत है, फिर भी उसे सच बताता है ताकि सामने वाला व्यक्ति contract कर ले, तो यह fraud है।

Example

A जानता है कि car accident में damaged है, फिर भी B से कहता है कि car बिल्कुल नई है। यह fraud है।

Section 17(2)
Active concealment

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है, जबकि उसे बताने का कर्तव्य था, तो यह active concealment कहलाता है और fraud माना जाता है।

Example

Seller घर की दीवार में बड़ी crack को paint से छुपा देता है और buyer को इसके बारे में नहीं बताता। यह fraud है।

Section 17(3)
Promise without intention of performing it

यदि कोई व्यक्ति promise करता है लेकिन उसे पूरा करने की कोई वास्तविक intention नहीं होती, तो यह fraud माना जाता है।

Example

A B से कहता है कि वह अगले सप्ताह phone deliver कर देगा जबकि उसके पास phone है ही नहीं। यह fraud है।

Section 17(4)
Any act fitted to deceive

कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो, fraud माना जाता है।

Example

Fake documents दिखाकर किसी से agreement करवाना fraud है।

Section 17(5)
Fraud declared by law

यदि किसी act को किसी विशेष कानून द्वारा fraud घोषित किया गया है, तो वह भी fraud की श्रेणी में आता है।

Example

Company law के अंतर्गत false prospectus जारी करना statutory fraud माना जाता है।

Section 18 - Misrepresentation

Misrepresentation तब होती है जब कोई व्यक्ति बिना धोखा देने की नीयत के गलत जानकारी दे देता है या किसी duty का उल्लंघन कर देता है, जिससे दूसरी party गलतफहमी में आकर contract कर लेती है। इसमें intention to deceive नहीं होती।

Positive assertion

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में गलत statement देता है लेकिन उसे वास्तव में लगता है कि वह सही है, तो इसे positive assertion कहते हैं।

Example

A कहता है कि जमीन 10 बीघा है जबकि असल में 8 बीघा है और A को सच में लगता है कि वह 10 बीघा है। यह misrepresentation है।

Breach of duty without intent to deceive

जब कोई व्यक्ति किसी कानूनी या नैतिक duty का उल्लंघन करता है जिससे दूसरी party को नुकसान होता है, लेकिन उसका उद्देश्य धोखा देना नहीं होता, तो यह misrepresentation माना जाता है।

Example

A एक agent है और वह B को पूरी जानकारी नहीं देता जिससे B को नुकसान हो जाता है, लेकिन A की धोखा देने की नीयत नहीं थी। यह misrepresentation है।

Innocently causing mistake

जब कोई व्यक्ति बिना किसी बुरी नीयत के दूसरे व्यक्ति को contract के मुख्य विषय के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित कर देता है, तो यह misrepresentation कहलाता है।

Example

A कहता है कि मशीन नई है जबकि वह पुरानी है और A को सच में लगता है कि वह नई है। B इस गलतफहमी में contract कर लेता है। यह misrepresentation है।

Section 19 - Voidability of agreements without free consent

यदि किसी agreement में consent coercion, fraud या misrepresentation के कारण प्राप्त की गई हो, तो वह agreement voidable contract होता है। इसका अर्थ है कि जिस party की consent गलत तरीके से प्राप्त की गई है, उसके option पर वह contract रद्द किया जा सकता है।

जिस व्यक्ति की consent दबाव, धोखे या गलत जानकारी के कारण प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति contract को cancel करने या उसे जारी रखने का निर्णय ले सकता है। दूसरी party को contract cancel करने का अधिकार नहीं होता।

Example

A ने B को धोखा देकर contract कराया। B चाहे तो contract को रद्द कर सकता है। A को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

Right to insist on performance

यदि consent fraud या misrepresentation के कारण प्राप्त हुई है, तो पीड़ित party contract को cancel करने के बजाय यह भी मांग कर सकती है कि contract उसी प्रकार पूरा किया जाए जैसा कि बातें सच होतीं।

Example

A ने कहा कि factory 500 units बनाती है जबकि वास्तव में 400 units बनाती है। B contract cancel करने के बजाय मांग कर सकता है कि उसे वही स्थिति दी जाए जैसे factory 500 units बनाती हो।

Exception

Ordinary diligence

यदि consent misrepresentation या silence से प्राप्त हुई है और पीड़ित व्यक्ति सामान्य सावधानी बरतकर सच्चाई का पता लगा सकता था, तो agreement voidable नहीं होगा।

Example

A कहता है कि जमीन 10 बीघा है। B सरकारी रिकॉर्ड देखकर सच्चाई जान सकता था लेकिन उसने जांच नहीं की। ऐसी स्थिति में contract voidable नहीं होगा।

Explanation

यदि fraud या misrepresentation से consent वास्तव में प्रभावित नहीं हुई है, तो contract voidable नहीं बनेगा।

Example

A झूठ बोलता है लेकिन B पहले से ही सच्चाई जानता है। ऐसी स्थिति में contract valid रहेगा।

Section 19A - Power to set aside contract induced by undue influence

यदि किसी agreement में consent undue influence से प्राप्त हुई है, तो contract voidable होता है। पीड़ित party के option पर contract को रद्द किया जा सकता है।

Court के पास यह discretion होता है कि वह contract को पूरी तरह रद्द कर दे या न्यायसंगत शर्तों के साथ रद्द करे, विशेषकर तब जब पीड़ित party को contract से कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो।

Example

A के बेटे ने B का नाम जाली तरीके से promissory note पर लिख दिया। B इस आधार पर A को धमकाकर उससे bond लिखवा लेता है। Court इस bond को undue influence के कारण set aside कर सकती है।

Example

A एक moneylender है और उसने B को 100 रुपये उधार दिए लेकिन undue influence से 200 रुपये का bond लिखवा लिया और अत्यधिक ब्याज तय कर दिया। Court bond को रद्द कर सकती है और B को केवल 100 रुपये तथा उचित ब्याज लौटाने का आदेश दे सकती है।

Section 20 - Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact

यदि किसी agreement के समय दोनों parties किसी essential matter of fact के बारे में गलती में हों, तो agreement void होगा। इसका अर्थ है कि agreement शुरू से ही कानूनी रूप से अमान्य होगा।

यह गलती किसी महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। केवल किसी वस्तु की value या price के बारे में गलत राय mistake of fact नहीं मानी जाती।

Example

A B को ऐसा cargo बेचने का agreement करता है जो England से Bombay आ रहा था। contract के पहले ही जहाज डूब चुका था और goods नष्ट हो चुके थे, लेकिन दोनों को इसका पता नहीं था। agreement void होगा।

Example

A B से एक घोड़ा खरीदने का agreement करता है लेकिन contract के समय घोड़ा पहले ही मर चुका था और दोनों को इसकी जानकारी नहीं थी। agreement void होगा।

Example

A B की जिंदगी के दौरान estate बेचने का agreement करता है लेकिन B पहले ही मर चुका था और दोनों को इसकी जानकारी नहीं थी। agreement void होगा।

When both parties to an agreement are under a mistake as to an essential matter of fact, the agreement is void.

Section 21 - Effect of mistake as to law

यदि contract करते समय parties भारत में लागू किसी कानून के बारे में गलती करती हैं, तो ऐसी गलती के कारण contract void या voidable नहीं होता। भारतीय कानून को हर व्यक्ति द्वारा ज्ञात माना जाता है। इसलिए Indian law के बारे में ignorance या misunderstanding contract को प्रभावित नहीं करती।

लेकिन यदि गलती किसी ऐसे कानून के बारे में हो जो भारत में लागू नहीं है, तो उसे mistake of fact माना जाएगा।

Example

A और B यह मानकर contract करते हैं कि एक debt Limitation Act के कारण barred हो चुका है। बाद में पता चलता है कि वह debt barred नहीं था। यह Indian law के बारे में mistake है, इसलिए contract voidable नहीं होगा।

Example

A और B ने GST कानून को गलत समझकर contract किया। यह Indian law की गलती है, इसलिए contract valid रहेगा।

Rule

Mistake of Indian law does not make a contract voidable, but mistake of foreign law is treated as mistake of fact.

Section 22 - Contract caused by mistake of one party as to matter of fact

यदि किसी contract में केवल एक party किसी fact के बारे में गलती में है, तो contract voidable नहीं होगा। इसे unilateral mistake कहा जाता है।

Rule

One-sided mistake is no excuse.

Example

A ने जमीन यह सोचकर बेची कि उसकी value 10 लाख रुपये है, जबकि असल value 20 लाख रुपये थी। यह केवल A की गलती है, इसलिए contract valid रहेगा।

Section 23 - What considerations and objects are lawful and what not

Consideration और object lawful तब माने जाते हैं जब वे कानून के विरुद्ध न हों। यदि consideration या object निम्न स्थितियों में आता है, तो वह unlawful माना जाएगा और agreement void होगा।

1. यदि consideration या object कानून द्वारा forbidden हो।
2. यदि उसकी अनुमति देने से किसी कानून का उद्देश्य defeat हो जाए।
3. यदि वह fraudulent हो।
4. यदि वह किसी व्यक्ति या उसकी property को injury पहुँचाता हो।

5. यदि वह immoral हो या public policy के विरुद्ध हो।

Example

A B को अपना house 10,000 रुपये में बेचता है। B का 10,000 रुपये देना और A का house देना दोनों lawful consideration हैं, इसलिए यह valid contract है।

Example

A B को 10,000 रुपये देता है ताकि B किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। यह unlawful object है और agreement void होगा।

Example

A B को bribe देने के लिए पैसा देता है। यह unlawful consideration है और agreement void होगा।

Section 24 - Agreements void if considerations and objects unlawful in part

यदि किसी agreement में consideration या object का कोई भी हिस्सा unlawful हो, तो पूरा agreement void हो जाता है।

यदि एक ही consideration के कई parts हों या एक ही object के लिए कई considerations हों और उनमें से कोई एक भी unlawful हो, तो पूरा agreement invalid हो जाएगा।

Example

A B के लिए दो काम करने का वादा करता है। पहला काम indigo का legal manufacture करना है और दूसरा काम illegal traffic करना है। B A को 10,000 रुपये वार्षिक salary देने का वादा करता है। क्योंकि काम का एक हिस्सा unlawful है, इसलिए पूरा agreement void होगा।

Example

A B से कहता है कि वह 5 लाख रुपये लेकर उसे shop दिलवाएगा और साथ में tax evasion भी करवा देगा। Tax evasion illegal है, इसलिए पूरा agreement void होगा।

Example

A को पैसा दिया जाता है जिसमें आधा legal consultancy के लिए है और आधा bribe देने के लिए है। Bribe illegal है, इसलिए पूरा agreement void होगा।

Rule

Where any part of consideration or object is unlawful, the whole agreement becomes void.

Section 25 - Agreement without consideration

सामान्य नियम यह है कि consideration के बिना किया गया agreement void होता है। Contract बनने के लिए consideration आवश्यक होती है।

लेकिन Section 25 में तीन महत्वपूर्ण exceptions दिए गए हैं जिनमें बिना consideration भी agreement valid हो सकता है।

Exception

Natural love and affection

यदि agreement written और registered हो तथा निकट संबंधियों के बीच natural love and affection के कारण किया गया हो, तो वह valid होगा।

Example

A अपने बेटे B को 5 लाख रुपये देने का written और registered promise करता है। यह valid agreement होगा।

Exception

Promise to compensate for past voluntary service

यदि किसी व्यक्ति ने पहले बिना कहे किसी के लिए voluntary service की हो और बाद में वह व्यक्ति compensation देने का promise करे, तो agreement valid होगा।

Example

A ने बिना कहे B की जान बचाई। बाद में B कहता है कि वह A को 50,000 रुपये देगा। यह valid agreement होगा।

Exception

Promise to pay time-barred debt

यदि कोई debt limitation law के कारण recoverable नहीं है लेकिन debtor उसे चुकाने का written promise करता है, तो agreement valid होगा।

Example

B का A पर पुराना कर्ज limitation period के कारण recoverable नहीं है, लेकिन A लिखित में promise करता है कि वह उसे चुका देगा। यह valid agreement होगा।

Rule

An agreement without consideration is void unless it falls within the exceptions provided in Section 25.



Section 26 - Agreement in restraint of marriage

कोई भी agreement जो किसी व्यक्ति की शादी करने की स्वतंत्रता को रोकता है, void होता है। यह rule सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वह partial restraint हो या complete restraint।

Example

A B से agreement करता है कि यदि B शादी करेगा तो उसे 10 लाख रुपये penalty देनी होगी। यह agreement void होगा क्योंकि यह marriage पर restraint लगाता है।

Example

Employer employee से कहता है कि जब तक वह नौकरी में है तब तक शादी नहीं कर सकता। यह agreement भी void होगा।

Rule

Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void.

Section 27 - Agreement in Restraint of Trade, Void

हर ऐसा agreement जिसमें किसी व्यक्ति को lawful profession, trade या business करने से रोका जाता है, उस हद तक void होता है। किसी व्यक्ति को अपनी जीविका या व्यापार करने से contract के माध्यम से नहीं रोका जा सकता।

Example

A, B से agreement करता है कि B कंपनी छोड़ने के बाद पाँच साल तक कोई business नहीं करेगा। यह agreement trade restraint है और void होगा।

Example

Employer employee से कहता है कि नौकरी छोड़ने के बाद वह कहीं और काम नहीं करेगा। ऐसा agreement भी void होगा।

यह नियम strict है। चाहे restraint complete हो या partial, समय के लिए हो या स्थान के लिए, सामान्यतः ऐसे agreements void माने जाते हैं।

Exception

Sale of goodwill

यदि किसी business की goodwill बेची जाती है और seller buyer से यह agree करता है कि वह उसी क्षेत्र में वही business नहीं करेगा, और यह restriction reasonable है, तो ऐसा agreement valid होगा।

Example

A ने अपना restaurant B को goodwill सहित बेच दिया और agreement में लिखा है कि A अगले दो वर्षों तक उसी इलाके में restaurant नहीं खोलेगा। यह agreement valid होगा क्योंकि यह goodwill sale से संबंधित reasonable restriction है।

Section 28 - Agreements in restraint of legal proceedings

हर ऐसा agreement void है जो किसी व्यक्ति को अपने legal rights को court में enforce करने से रोकता है या उसकी legal proceedings की time limit को कानून द्वारा निर्धारित अवधि से कम कर देता है।

यदि किसी agreement में यह शर्त हो कि व्यक्ति court में नहीं जाएगा या एक निश्चित समय के बाद उसका right या liability समाप्त हो जाएगी जिससे वह court में claim नहीं कर सके, तो ऐसा agreement void होगा।

Example

Agreement में लिखा है कि इस contract से संबंधित कोई भी विवाद court में नहीं जाएगा। यह agreement void होगा।

Example

कानून के अनुसार suit तीन वर्ष के भीतर दायर किया जा सकता है, लेकिन contract में लिखा है कि claim केवल एक वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है। यह clause void होगा।

Example

Insurance policy में लिखा है कि छह महीने के बाद claim का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसी clause भी void हो सकती है जब तक कि exception लागू न हो।

Exceptions

Arbitration for future disputes

यदि contract में यह provision हो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले disputes arbitration या mediation द्वारा हल किए जाएंगे, तो ऐसा agreement valid होता है।

Example

A और B agree करते हैं कि भविष्य में होने वाले disputes arbitration के माध्यम से resolve किए जाएंगे। यह valid agreement है।

Arbitration for existing disputes

यदि dispute पहले से उत्पन्न हो चुका है और parties लिखित agreement द्वारा उसे arbitration या mediation के माध्यम से resolve करने के लिए सहमत होती हैं, तो यह भी valid है।

Example

A और B के बीच dispute उत्पन्न हो चुका है और बाद में दोनों arbitration में जाने का agreement करते हैं। यह valid होगा।

Bank or financial institution guarantees

Bank या financial institution द्वारा दी गई guarantee में यह condition हो सकती है कि एक निश्चित समय के बाद claim या liability समाप्त हो जाएगी। ऐसी clause valid मानी जाती है यदि वह कानून के अनुरूप हो।

Section 29 - Agreements void for uncertainty

यदि किसी agreement का अर्थ स्पष्ट नहीं है या उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो वह agreement void होगा। Contract के terms इतने निश्चित होने चाहिए कि court उन्हें समझ सके और लागू कर सके।

Example

A B को 100 tons oil बेचने का agreement करता है लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कौन-सा oil है। यह agreement uncertain है और void होगा।

Example

यदि oil का specific description दिया गया हो, तो agreement valid होगा।

Example

Coconut oil dealer द्वारा 100 tons oil बेचने का agreement किया जाता है। क्योंकि dealer coconut oil का व्यापार करता है, इसलिए अर्थ स्पष्ट है और agreement valid होगा।

Example

A कहता है कि वह अपने Ramnagar के granary में मौजूद सारा grain बेचेगा। quantity identifiable है इसलिए agreement valid होगा।

Example

A B को 1000 maunds rice बेचने का agreement करता है और price C द्वारा तय किया जाना है। price future में निश्चित किया जा सकता है इसलिए agreement valid होगा।

Example

A अपना white horse 500 या 1000 रुपये में बेचने का agreement करता है। price uncertain है इसलिए agreement void होगा।

Rule

An agreement is void if its meaning is not certain or capable of being made certain.

Section 30 - Agreements by way of wager

Wager का अर्थ है ऐसा agreement जो किसी uncertain event के outcome पर आधारित हो और जिसमें एक party जीतती है और दूसरी हारती है। ऐसे agreements void होते हैं और उनके आधार पर court में suit maintainable नहीं होता।

Example

A और B शर्त लगाते हैं कि यदि India match जीतती है तो A B को 5000 रुपये देगा और यदि हारती है तो B A को 5000 रुपये देगा। यह wager agreement है और void होगा।

Exception

Horse racing prizes

Horse racing में 500 रुपये या उससे अधिक के prize या contribution को winner को देने का agreement valid माना जाता है।

Rule

Agreements by way of wager are void, except certain prizes for horse racing.

Section 31 - "Contingent Contract" Defined

Contingent contract वह contract होता है जिसमें किसी कार्य को करना या न करना किसी future uncertain event के होने या न होने पर depend करता है। यह event contract का main part नहीं होता बल्कि collateral event होता है।

Simple meaning

ऐसा contract जिसमें कहा जाता है कि "अगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो contract लागू होगा।"

Important points

1. Event future का होना चाहिए।
2. Event uncertain होना चाहिए।
3. Event contract का main part नहीं बल्कि collateral होना चाहिए।
4. Contingent contract valid होता है।

Example

A B से कहता है कि अगर B का घर जल गया तो A उसे 10,000 रुपये देगा। यहाँ घर का जलना एक uncertain event है और payment उसी पर depend करता है। यह contingent contract है।

Example

Insurance contract में अगर accident होता है तो insurance company payment करती है। Accident uncertain event है इसलिए यह contingent contract है।

Difference between contingent contract and wager

1. Contingent contract में parties का real interest होता है और यह lawful होता है।
2. Wager agreement में parties का real interest नहीं होता और वह gambling के समान होता है।
3. Contingent contract valid होता है जबकि wager agreement void होता है।

Rule

A contingent contract is a contract to do or not to do something if some collateral uncertain event happens or does not happen.

Section 32 - Enforcement of contracts contingent on an event happening

यदि contingent contract किसी uncertain event के होने पर depend करता है, तो वह contract तभी enforce किया जा सकता है जब वह event वास्तव में हो जाए। यदि वह event impossible हो जाता है तो contract void हो जाता है।

Example

A B से कहता है कि अगर C मर गया तो A B से घोड़ा खरीदेगा। जब तक C नहीं मरता, contract enforce नहीं किया जा सकता।

Example

A B से कहता है कि अगर B की शादी C से हो गई तो वह 50,000 रुपये देगा। यदि C मर जाता है और शादी असंभव हो जाती है, तो contract void हो जाएगा।

Section 33 - Enforcement of contracts contingent on an event not happening

यदि contract इस शर्त पर आधारित है कि कोई event नहीं होगा, तो contract तब enforce किया जा सकता है जब उस event का होना impossible हो जाए।

Example

A कहता है कि अगर जहाज वापस नहीं आया तो वह B को 1,00,000 रुपये देगा। यदि जहाज डूब जाता है और उसका वापस आना असंभव हो जाता है, तो contract enforceable हो जाता है।

Section 34 - When event contingent on conduct of a living person is deemed impossible

यदि contingent contract किसी living person के future conduct पर depend करता है और वह व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जिससे वह event impossible हो जाए, तो उस event को impossible माना जाएगा।

Example

A कहता है कि अगर B, C से शादी करेगा तो वह 50,000 रुपये देगा। यदि C ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली तो B और C की शादी impossible हो जाएगी और contract void हो जाएगा।

Section 35 - Contracts contingent on happening or not happening of specified event within fixed time

यदि contract में यह शर्त हो कि कोई event एक निश्चित समय के भीतर होना चाहिए, तो contract दो स्थितियों में void हो सकता है। यदि निर्धारित समय समाप्त हो जाए और event न हुआ हो, या यदि समय समाप्त होने से पहले ही event impossible हो जाए।

Example

A कहता है कि अगर जहाज एक वर्ष के भीतर वापस आ गया तो वह 1,00,000 रुपये देगा। यदि जहाज एक वर्ष के भीतर लौट आता है तो contract enforceable होगा। यदि जहाज जल जाता है और लौटना असंभव हो जाता है तो contract void हो जाएगा।

यदि contract इस शर्त पर हो कि कोई event एक निश्चित समय के भीतर नहीं होना चाहिए, तो contract तब enforceable होगा जब समय समाप्त हो जाए और event न हुआ हो, या समय समाप्त होने से पहले ही यह निश्चित हो जाए कि event नहीं होगा।

Example

A कहता है कि अगर जहाज एक वर्ष के भीतर वापस नहीं आया तो वह 50,000 रुपये देगा। यदि एक वर्ष बीत जाता है और

जहाज नहीं लौटता, तो contract enforceable होगा। यदि जहाज बीच में ही जल जाता है और लौटना असंभव हो जाता है, तब भी contract enforceable होगा।

Section 36 - Agreements contingent on impossible events

यदि कोई agreement किसी ऐसे event पर आधारित है जो असंभव है, तो वह agreement शुरू से ही void होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि parties को उस impossibility के बारे में पता था या नहीं।

Example

A कहता है कि यदि दो सीधी रेखाएँ एक जगह घेर लें तो वह B को 1,000 रुपये देगा। दो सीधी रेखाएँ कभी भी area नहीं बना सकतीं, इसलिए agreement void है।

Example

A कहता है कि यदि B उसकी बेटी C से शादी करेगा तो वह B को 1,000 रुपये देगा, लेकिन C पहले ही मर चुकी थी। यह event impossible है इसलिए agreement void होगा।

Chapter 4

Of the performance of contracts, contracts which must be performed

Section 37 - Obligations of parties to contracts

Contract की parties को अपनी promises perform करनी होंगी या performance offer करनी होगी, जब तक कि performance law के अनुसार excused न हो या contract में कोई अलग intention न दिखाई दे।

यदि promisor की मृत्यु हो जाती है, तो उसके legal representatives उस promise के लिए bound होंगे, जब तक कि contract personal nature का न हो।

Simple meaning

Contract किया है तो उसे निभाना होगा। यदि काम personal skill का नहीं है, तो promisor की मृत्यु के बाद भी obligation उसके legal representatives पर जा सकता है।

Example

A ने B से वादा किया कि वह B को 1000 रुपये लेकर goods deliver करेगा। delivery से पहले A की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में A के legal heirs goods deliver करेंगे और B 1000 रुपये देगा।

Example

A ने B के लिए painting बनाने का वादा किया। A की मृत्यु हो जाती है। यह personal skill का contract है इसलिए इसे enforce नहीं किया जा सकता।

Section 38 - Effect of refusal to accept offer of performance

यदि promisor ने contract के अनुसार performance करने का proper offer किया और promisee ने उसे accept करने से मना कर दिया, तो promisor non-performance के लिए liable नहीं होगा और अपने rights भी नहीं खोएगा।

लेकिन offer तभी valid मानी जाएगी जब वह unconditional हो, proper time और place पर की गई हो, promisee को performance check करने का reasonable opportunity मिले और offered thing वही हो जो contract में promised है।

Joint promisees के मामले में एक promisee को valid offer करना सभी को offer करने के समान माना जाता है।

Example

A ने B से contract किया कि वह 1 March को B के warehouse में 100 bales cotton deliver करेगा। A सही date और place पर cotton लेकर पहुंच गया लेकिन B ने उसे लेने से मना कर दिया। इस स्थिति में A liable नहीं होगा और breach B का माना जाएगा।

Section 39 - Effect of refusal of party to perform promise wholly

यदि कोई party अपनी promise पूरी तरह perform करने से मना कर देती है या खुद को perform करने में असमर्थ बना लेती है, तो दूसरी party contract को समाप्त कर सकती है। इसे anticipatory breach भी कहा जाता है।

यदि innocent party अपने conduct या words से contract को जारी रखने की सहमति दे देती है, तो वह contract समाप्त नहीं कर सकती लेकिन नुकसान के लिए compensation मांग सकती है।

Example

A एक singer है जिसने B के theatre में सप्ताह में दो दिन गाने का contract किया। छठे दिन A जानबूझकर नहीं आती। B contract समाप्त कर सकता है।

Example

यदि B छठे दिन के बाद भी A को सातवें दिन गाने देता है, तो इसका अर्थ है कि B ने contract जारी रखने की सहमति दे दी। अब वह contract समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन नुकसान के लिए compensation मांग सकता है।

Section 40 - Person by whom promise is to be performed

यदि contract की nature से स्पष्ट है कि काम promisor को ही personally करना है, तो वही उसे perform करेगा। अन्य स्थितियों में promisor स्वयं, उसका representative या कोई competent person promise perform कर सकता है।

Example

A ने B को पैसे देने का वादा किया। A स्वयं पैसे दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से दिलवा सकता है। यदि A की मृत्यु हो जाए तो उसके legal heirs payment करेंगे।

Example

A ने B की painting बनाने का वादा किया। यह personal skill का काम है इसलिए A को स्वयं ही perform करना होगा।

Section 41 - Effect of accepting performance from third person

यदि promisee किसी third person से performance accept कर लेता है, तो वह बाद में original promisor से वही performance दोबारा नहीं मांग सकता।

Example

A को B से पैसे मिलने थे। C ने B की ओर से पैसे दे दिए और A ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अब A B से वही पैसे दोबारा नहीं मांग सकता।

Section 42 - Devolution of joint liabilities

जब दो या अधिक लोग jointly promise करते हैं, तो वे सभी अपने जीवनकाल में jointly liable होते हैं। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका legal representative भी liability के लिए bound होगा। अंतिम survivor की मृत्यु के बाद सभी legal representatives jointly liable होंगे।

Example

A, B और C ने मिलकर 90,000 रुपये देने का promise किया। A की मृत्यु हो जाती है। अब B, C और A के legal representatives jointly liable होंगे।

Section 43 - Any one of joint promisors may be compelled to perform

Joint promise के मामले में promisee किसी एक promisor से पूरा performance मांग सकता है। जिस promisor से पूरा payment लिया गया है, उसे बाकी joint promisors से equal contribution मांगने का अधिकार होता है।

यदि कोई promisor contribution नहीं देता, तो बाकी promisors उस हिस्से का नुकसान बराबर बांटेंगे।

Example

A, B और C ने 90,000 रुपये देने का joint promise किया। Promisee ने पूरा पैसा A से ले लिया। A, B और C से 30,000 रुपये प्रत्येक मांग सकता है।

Example

यदि C अपना हिस्सा नहीं देता, तो A और B C के हिस्से का नुकसान बराबर बांटेंगे।

Section 44 - Effect of release of one joint promisor

यदि promisee किसी एक joint promisor को release कर देता है, तो इससे बाकी joint promisors discharge नहीं होते। इसके अलावा जो promisor release किया गया है, वह भी बाकी joint promisors के प्रति अपनी liability से मुक्त नहीं होता।

Example

A, B और C ने मिलकर D को 3,000 रुपये देने का promise किया। D ने A को release कर दिया। फिर भी D, B या C से पूरा पैसा मांग सकता है और A, B तथा C के प्रति अपनी joint liability से मुक्त नहीं होगा।

Section 45 - Devolution of joint rights

जब एक promise दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में jointly किया जाता है, तो उनके जीवित रहते हुए अधिकार उन सभी के पास jointly रहता है। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका legal representative और survivor मिलकर उस right का प्रयोग करेंगे। अंतिम survivor की मृत्यु के बाद सभी legal representatives jointly उस right का प्रयोग करेंगे।

Example

B और C ने A को 5,000 रुपये उधार दिए और A ने B और C को jointly repay करने का promise किया। यदि B की मृत्यु हो जाती है, तो अब repayment मांगने का अधिकार C और B के legal representative के पास jointly होगा।

Time and place for performance

Section 46 - Time for performance of promise, where no application is to be made and no time is specified

यदि contract में performance के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है और promisee को performance के लिए कोई application भी नहीं करनी है, तो promisor को अपनी promise reasonable time के भीतर perform करनी होगी।

Explanation

Reasonable time का अर्थ हर case के facts और circumstances पर निर्भर करता है।

Simple meaning

यदि contract में समय निर्धारित नहीं है, तो promisor को उचित और reasonable समय के भीतर performance करनी होगी।

Example

A ने B की मशीन ठीक करने का वादा किया लेकिन कोई date तय नहीं की गई। ऐसी स्थिति में A को परिस्थितियों के अनुसार reasonable time के भीतर मशीन ठीक करनी होगी।

Section 47 - Time and place for performance of promise where time is specified and no application is to be made

यदि contract में performance के लिए एक निश्चित दिन निर्धारित किया गया है और promisee को performance के लिए कोई application करने की आवश्यकता नहीं है, तो promisor उस दिन business hours के भीतर उस स्थान पर performance कर सकता है जहाँ promise perform की जानी थी।

Simple meaning

यदि दिन तय है और promisee को request करने की आवश्यकता नहीं है, तो promisor उस दिन business hours में सही स्थान पर जाकर performance कर सकता है।

Example

A ने B से वादा किया कि वह 10 जुलाई को B के warehouse में goods deliver करेगा। B को कोई application करने की आवश्यकता नहीं है। A 10 जुलाई को business hours के भीतर warehouse में goods deliver कर सकता है।

Section 48 - Application for performance on certain day to be at proper time and place

यदि contract में performance के लिए एक निश्चित दिन तय है और promisor ने यह नहीं कहा कि वह बिना application के performance करेगा, तो promisee का कर्तव्य है कि वह proper time और proper place पर performance के लिए application करे।

यह application business hours के भीतर और उचित स्थान पर की जानी चाहिए।

Explanation

Proper time और proper place का निर्धारण हर case के facts पर निर्भर करता है।

Example

A ने B को 1 जनवरी को goods देने का वादा किया। A ने यह नहीं कहा कि वह बिना application के goods deliver करेगा। इसलिए B को 1 जनवरी को business hours के भीतर उचित स्थान पर A से delivery लेने के लिए application करनी होगी।

Section 49 - Place for performance of promise where no application is to be made and no place fixed

यदि contract में performance के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है और promisee को application भी नहीं करनी है, तो promisor का कर्तव्य है कि वह promisee से reasonable place निर्धारित करने के लिए कहे और उसी स्थान पर performance करे।

Example

A ने B को 1000 maunds jute देने का वादा किया लेकिन delivery का स्थान तय नहीं किया गया। A को B से कहना होगा कि वह delivery के लिए एक reasonable place बताए और A वहीं goods deliver करेगा।

Section 50 - Performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee

Promise का performance उस तरीके या समय पर किया जा सकता है जिसे promisee ने prescribe या approve किया हो। यदि promisee किसी विशेष manner या time को स्वीकार करता है, तो उसी प्रकार की performance valid मानी जाएगी।

Example

B, A को 2000 रुपये देना चाहता है। A कहता है कि payment C के account में bank transfer के माध्यम से कर दो। B ऐसा कर देता है। यह valid performance है।

Example

A और B एक-दूसरे के देनदार हैं। वे अपने accounts settle करते हैं और balance amount pay किया जाता है। यह valid performance है।

Example

A के 2000 रुपये बाकी हैं। B कुछ goods ले लेता है और उसे part payment के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यह valid performance है।

Example

A कहता है कि 100 रुपये का payment डाक से भेज दो। B letter के माध्यम से note भेज देता है। जैसे ही letter post किया जाता है, debt discharge हो जाता है।

Amit Arya
Hindi Law Shorts

Performance Of Reciprocal Promises

Section 51 - Promisor not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing

जब किसी contract में reciprocal promises हों और दोनों promises को एक साथ perform किया जाना हो, तो कोई भी promisor तब तक performance करने के लिए बाध्य नहीं होता जब तक दूसरा पक्ष अपनी promise perform करने के लिए ready और willing न हो।

Simple meaning

यदि contract में दोनों पक्षों को एक-साथ performance करनी है, तो एक पक्ष तब तक performance करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक दूसरा पक्ष भी तैयार न हो।

Example

A और B के बीच contract है कि A goods deliver करेगा और B delivery के समय payment करेगा। यदि B payment करने के लिए ready नहीं है, तो A goods deliver करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Section 52 - Order of performance of reciprocal promises

जब contract में reciprocal promises हों और उनके performance का order contract में स्पष्ट रूप से निर्धारित हो, तो promises उसी निर्धारित क्रम में perform की जाएंगी। यदि contract में order निर्धारित नहीं है, तो promises transaction की nature के अनुसार perform की जाएंगी।

Illustration

A और B का contract है कि A, B के लिए house बनाएगा और B price pay करेगा। इस situation में पहले A को house बनाना होगा और उसके बाद B payment करेगा।

Illustration

A अपनी stock-in-trade B को बेचने का contract करता है और B पहले security देने का वादा करता है। यहाँ पहले B security देगा और उसके बाद A stock deliver करेगा।

Section 53 - Liability of party preventing event on which contract is to take effect

यदि reciprocal promises वाले contract में एक party दूसरी party को उसकी promise perform करने से रोक देती है, तो contract उस party के option पर voidable हो जाता है जिसे performance से रोका गया है। इसके साथ-साथ वह party loss के लिए compensation पाने की हकदार भी होती है।

Example

A और B का contract है कि B, A के लिए 1000 रुपये का काम करेगा। B काम करने के लिए ready है लेकिन A उसे काम करने से रोक देता है। ऐसी स्थिति में B contract को cancel कर सकता है और A से compensation मांग सकता है।

Section 54 - Effect of default as to the promise which should be performed first

यदि reciprocal promises में से किसी एक promise को पहले perform किया जाना था और वह promise perform नहीं की जाती, तो वह party दूसरी party से performance की मांग नहीं कर सकती। साथ ही उसे दूसरी party को हुए नुकसान का compensation देना होगा।

Example

A, B को ship hire करता है। A को cargo provide करना था और B को ship sail करनी थी। A cargo provide नहीं करता। ऐसी स्थिति में A, B से ship sail करने की मांग नहीं कर सकता और उसे B को हुए नुकसान का compensation देना होगा।

Section 55 - Effect of failure to perform at fixed time

यदि contract में performance के लिए निश्चित समय तय किया गया हो और parties की intention यह हो कि time contract का essential part है, और promisor उस समय पर performance करने में fail हो जाता है, तो contract promisee के option पर voidable हो जाता है।

Example

A ने B से वादा किया कि वह 1 June तक goods deliver करेगा। यदि A उस समय तक delivery नहीं करता और time contract का essential part था, तो B contract को cancel कर सकता है।

यदि time contract का essential part नहीं है, तो contract voidable नहीं होगा लेकिन promisee delay के कारण हुए loss के लिए compensation मांग सकता है।

यदि promisee delay के बाद performance accept कर लेता है, तो वह delay के लिए compensation claim नहीं कर सकता जब तक कि वह acceptance के समय notice न दे कि वह compensation claim करेगा।

Section 56 - Agreement to do impossible act

यदि कोई agreement शुरू से ही असंभव कार्य करने के लिए किया गया है, तो वह agreement void होता है।

Example

A और B का agreement है कि A जादू से treasure खोजेगा। यह काम असंभव है इसलिए agreement void है।

यदि contract बनाते समय performance possible थी लेकिन बाद में किसी uncontrollable event के कारण performance impossible या unlawful हो जाती है, तो contract void हो जाता है।

Example

A ने B से promise किया कि वह foreign country में concert करेगा। बाद में war शुरू हो जाती है और entry ban लग जाता है। ऐसी स्थिति में contract void हो जाता है।

यदि promisor को पता था या उसे reasonable diligence से पता होना चाहिए था कि performance impossible या unlawful है और promisee को यह बात पता नहीं थी, तो promisor को promisee को हुए loss का compensation देना होगा।

Section 57 - Reciprocal promise to do things legal and also other things illegal

यदि parties reciprocal promises करती हैं जिनमें एक promise legal है और दूसरी illegal है, तो legal promise valid contract होगी और illegal promise void होगी।

Example

A और B agree करते हैं कि A अपना house B को 10000 रुपये में बेचेगा। यह legal promise है। लेकिन यदि B उस house को gambling house बनाता है तो वह A को 50000 रुपये देगा। यह illegal promise है। इस स्थिति में house sale वाला part valid रहेगा और gambling वाला part void होगा।

Section 58 - Alternative promise one branch being illegal

यदि किसी alternative promise में दो विकल्प दिए गए हों और उनमें से एक legal हो तथा दूसरा illegal हो, तो केवल legal विकल्प enforceable होगा और illegal विकल्प void होगा।

Example

A और B agree करते हैं कि A, B को 1000 रुपये देगा और बदले में B या तो rice देगा या smuggled opium देगा। यहाँ

rice देना legal है और opium देना illegal है। इसलिए केवल rice वाला option enforceable होगा और opium वाला option void होगा।

Appropriation of payments

Section 59 - Application of payment where debt to be discharged is indicated

जब एक debtor एक ही creditor के प्रति कई अलग-अलग debts का देनदार होता है और payment करते समय debtor स्पष्ट रूप से बता देता है कि यह payment किस particular debt के लिए है, तो creditor को वही payment उसी debt में adjust करनी होगी जिसे debtor ने indicate किया है।

Simple meaning

यदि debtor payment करते समय बता देता है कि पैसे किस debt के लिए दिए जा रहे हैं, तो creditor उसी debt में payment adjust करेगा।

Illustration

A, B का कई debts में देनदार है। उनमें से एक promissory note पर 1000 रुपये का debt है जो 1 June को due है। 1 June को A, B को 1000 रुपये देता है और यह payment उसी promissory note वाले debt के लिए मानी जाएगी।

Illustration

A, B का कई debts में देनदार है। B, A को letter लिखकर 567 रुपये की demand करता है। A, B को 567 रुपये भेज देता है। यह payment उसी debt के लिए adjust होगी जिसकी demand B ने की थी।

Section 60 - Application of payment where debt to be discharged is not indicated

जब debtor payment करते समय यह नहीं बताता कि payment किस debt के लिए है और circumstances से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि payment किस debt के लिए दी गई है, तो creditor को अधिकार है कि वह payment को अपनी इच्छा से किसी भी lawful debt में adjust कर सकता है।

यह adjustment उस debt में भी किया जा सकता है जो limitation से barred हो चुका हो।

Simple meaning

यदि debtor payment करते समय यह नहीं बताता कि payment किस debt के लिए है, तो creditor को अधिकार है कि वह payment को अपनी पसंद के किसी भी debt में adjust कर दे।

Example

A, B का दो debts में देनदार है। एक fresh debt है और दूसरा time-barred debt है। A बिना कुछ बताए payment कर देता है। ऐसी स्थिति में B payment को किसी भी debt में adjust कर सकता है, यहाँ तक कि time-barred debt में भी।

Section 61 - Application of payment where neither party appropriates

जब debtor payment करते समय यह नहीं बताता कि payment किस debt के लिए है और creditor भी payment को किसी particular debt में adjust नहीं करता, तो payment debts के time order के अनुसार adjust होगी।

जो debt सबसे पहले बना है, payment पहले उसी debt में adjust होगी। यह rule उन debts पर भी लागू होगा जो limitation से barred हों।

यदि debts एक ही level या equal standing की हों, तो payment proportionately adjust होगी।

Simple meaning

यदि payment के adjustment के बारे में debtor और creditor दोनों कुछ नहीं बताते, तो payment सबसे पुराने debt में adjust की जाएगी।

Example

A के B के प्रति तीन debts हैं। पहला debt सबसे पुराना है, दूसरा उसके बाद और तीसरा सबसे नया है। A payment करता है लेकिन adjustment के बारे में कुछ नहीं बताता और B भी कुछ नहीं कहता। ऐसी स्थिति में payment पहले सबसे पुराने debt में adjust होगी।

Contracts Which Need Not To be Performed

Section 62 – Effect of novation, rescission and alteration of contract

यदि contract की parties आपसी सहमति से पुराने contract की जगह नया contract बना लें, या पुराने contract को रद्द कर दें, या उसकी terms में परिवर्तन कर दें, तो पुराने contract का performance आवश्यक नहीं रहता।

Simple meaning

जब नया contract पुराने contract को replace कर देता है या parties उसे बदल देती हैं, तो पुराने contract की obligation समाप्त हो जाती है।

Illustration

A, B का debtor है। A, B और C agree करते हैं कि B अब A की जगह C से payment लेगा। इस स्थिति में A और B के बीच पुराना contract समाप्त हो जाता है और B तथा C के बीच नया contract बन जाता है।

Illustration

A, B का 10,000 रुपये का debtor है। A और B agree करते हैं कि A 5,000 रुपये के बदले अपनी property B के favour में mortgage करेगा। इससे पुराना debt समाप्त हो जाता है और नया contract बन जाता है।

Illustration

A, B का debtor है। B, A से कहता है कि वह रकम C के नाम credit कर दे, लेकिन C सहमत नहीं होता। इस स्थिति में कोई novation नहीं होती और पुराना contract जारी रहता है।

Section 63 - Promisee may dispense with or remit performance of promise

Promisee को अधिकार है कि वह promisor की performance को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर दे, कम राशि स्वीकार कर ले, performance के समय को बढ़ा दे, या किसी अन्य satisfaction को स्वीकार कर ले। इसके लिए किसी नई consideration की आवश्यकता नहीं होती।

Simple meaning

जिसके favour में promise की गई है, वह promisor को पूरी या आंशिक obligation से मुक्त कर सकता है।

Illustration

A, B के लिए एक painting बनाने का वादा करता है। बाद में B उसे ऐसा करने से मना कर देता है। A अब painting बनाने के लिए बाध्य नहीं है।

Illustration

A, B का 5,000 रुपये का debtor है। B, 2,000 रुपये स्वीकार करके पूरे debt को satisfied मान लेता है। पूरा debt समाप्त हो जाता है।

Illustration

A, B का 5,000 रुपये का debtor है। C, B को 1,000 रुपये देता है और B उसे accept कर लेता है। इससे A का पूरा debt discharge हो जाता है।

Illustration

A, B का debtor है लेकिन debt की exact amount तय नहीं है। A, 2,000 रुपये देता है और B उसे final settlement मान लेता है। पूरा debt discharge हो जाता है।

Section 64 - Consequences of rescission of a voidable contract

जब कोई voidable contract उस party द्वारा rescind किया जाता है जिसके option पर वह voidable था, तो दूसरी party उस contract के तहत आगे performance करने के लिए बाध्य नहीं रहती। साथ ही जिसने contract को rescind किया है और contract के तहत कोई benefit प्राप्त किया है, उसे वह benefit वापस करना होगा या उसका मूल्य लौटाना होगा।

Simple meaning

Voidable contract cancel होने पर दोनों parties की future obligations समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जिसने benefit लिया है उसे वह वापस करना होगा।

Example

A और B के बीच voidable contract था। A ने contract rescind कर दिया लेकिन उसने B से पहले कुछ benefit लिया था। A को वह benefit वापस करना होगा।

Section 65 - Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void

जब कोई agreement शुरू से ही void हो या कोई valid contract बाद में void हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने उस agreement या contract के तहत कोई advantage प्राप्त किया है, उसे वह advantage वापस करना होगा या उसका compensation देना होगा।

Simple meaning

Void agreement या void हुए contract के तहत लिया गया लाभ वापस करना होगा।

Illustration

A, B को 1,000 रुपये देता है इस शर्त पर कि B, C से शादी करेगा। लेकिन C उस समय मर चुकी थी। Agreement void है और B को 1,000 रुपये वापस करने होंगे।

Illustration

A, B से 250 maunds rice deliver करने का contract करता है। A केवल 130 maunds deliver करता है और B उन्हें रख लेता है। B को उन 130 maunds का भुगतान करना होगा।

Illustration

A, एक singer, B के theatre में गाने का contract करती है। छठी रात A जानबूझकर नहीं आती और B contract rescind कर देता है। B को उन पाँच रातों का भुगतान करना होगा जिनमें A ने performance दी थी।

Illustration

A, B के theatre में concert गाने का contract करती है और advance लेती है। बाद में A बीमार हो जाती है और perform नहीं कर पाती। A को advance राशि वापस करनी होगी लेकिन loss of profit का compensation नहीं देना होगा।

Section 66 - Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract

Voidable contract का rescission उसी प्रकार communicate या revoke किया जाएगा जिस प्रकार proposal या acceptance communicate या revoke किए जाते हैं। इसके लिए वही rules लागू होंगे जो proposal और acceptance के communication पर लागू होते हैं।

Simple meaning

Contract cancel करने की सूचना उसी तरीके से दी जाएगी जैसे offer या acceptance communicate की जाती है।

Section 67 - Effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance

यदि promisee promisor को contract perform करने के लिए आवश्यक और reasonable facilities प्रदान नहीं करता या जानबूझकर ऐसा करने से मना करता है, तो promisor उस extent तक performance न करने के लिए responsible नहीं होगा।

Simple meaning

यदि promisee खुद performance में बाधा डालता है या आवश्यक सुविधा नहीं देता, तो promisor non-performance के लिए liable नहीं होगा।

Illustration

A, B के house की repair करने का contract करता है। B, A को यह नहीं बताता कि house के कौन-से हिस्से repair करने हैं। इस स्थिति में A repair न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि B ने आवश्यक सुविधा प्रदान नहीं की।

Chapter 5 Of Certain Relations Resembling Those Created By Contract

Section 68 - Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting

यदि कोई व्यक्ति contract करने में legally incapable है, जैसे minor या lunatic, और उसे या उन व्यक्तियों को जिनका वह कानूनी रूप से भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, उसकी life condition के अनुसार necessaries प्रदान की जाती हैं, तो necessaries देने वाला व्यक्ति उस incapable person की property से reimbursement प्राप्त कर सकता है। यह reimbursement व्यक्ति से personally नहीं बल्कि उसकी property से लिया जाएगा।

Illustration

A, B को जो lunatic है, उसकी condition के अनुसार necessaries देता है। A, B की property से reimbursement प्राप्त कर सकता है।

Illustration

A, B जो lunatic है, उसकी पत्नी और बच्चों को necessaries प्रदान करता है। A को B की property से reimbursement मिलेगा।

Section 69 - Reimbursement of person paying money due by another

यदि कोई व्यक्ति ऐसे payment में interested है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानूनन दिया जाना चाहिए, और वह व्यक्ति स्वयं वह payment कर देता है, तो उसे उस व्यक्ति से reimbursement प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसके behalf पर payment की गई थी।

Example

A पर land revenue बकाया है। यदि revenue नहीं दिया गया तो B की lease समाप्त हो जाएगी। B government को revenue pay कर देता है। इस स्थिति में A को B को वह राशि वापस करनी होगी।

Section 70 - Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ करता है या उसे कोई वस्तु deliver करता है और उसका intention free service देने का नहीं होता, तथा दूसरा व्यक्ति उस act या delivery का benefit ले लेता है, तो वह व्यक्ति जिसने benefit लिया है, उसे compensation देना होगा या benefit वापस करना होगा।

Illustration

A गलती से अपना goods B के house में छोड़ देता है। B उन goods को अपना समझकर use करता है। B को A को उसका value pay करना होगा।

Illustration

A, B की property को fire से बचाता है, लेकिन circumstances से यह स्पष्ट है कि A ने यह act free service के रूप में किया था। A compensation claim नहीं कर सकता।

Section 71 - Responsibility of finder of goods

जो व्यक्ति किसी अन्य का goods पाता है और उसे अपनी custody में ले लेता है, वह bailee के समान responsibility रखता है।

Simple meaning

Finder of goods को goods का reasonable care रखना होगा, उसे misuse नहीं करना चाहिए, और उसे owner को वापस करना होगा।

Example

A को road पर B का wallet मिलता है और वह उसे अपने पास रख लेता है। A, bailee की तरह responsible होगा।

Section 72 - Liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion

यदि किसी व्यक्ति को पैसा दिया गया हो या कोई वस्तु deliver की गई हो mistake के कारण, या coercion के कारण तो जिसने वह पैसा या वस्तु प्राप्त की है, वह उसे वापस करने या उसका repayment करने के लिए बाध्य होगा।

Simple meaning

अगर किसी को गलती से या दबाव में पैसा या सामान दे दिया गया है, तो वह व्यक्ति उसे अपने पास नहीं रख सकता। उसे वह पैसा या वस्तु वापस करनी होगी।

Important point

यह rule तब भी लागू होता है जब payment law की mistake के कारण हुई हो।

Example

A गलती से B को 1,000 रुपये दे देता है यह सोचकर कि वह उसका debtor है। बाद में पता चलता है कि कोई debt था ही नहीं। B को 1,000 रुपये वापस करने होंगे।

Example

A से coercion के द्वारा पैसा वसूल किया गया। जिसने पैसा लिया है उसे वह राशि वापस करनी होगी।

Legal principle

Money paid or goods delivered by mistake or under coercion must be repaid or returned.

Chapter 6 Consequences of breach of contract

Section 73 - Compensation for loss or damage caused by breach of contract

यदि contract का breach होता है, तो उस party को compensation प्राप्त करने का अधिकार है जिसे breach के कारण loss हुआ है। Compensation केवल उस loss के लिए मिलेगा जो naturally breach से उत्पन्न हुआ हो या जिसे parties ने contract बनाते समय foreseeable माना हो।

Remote या indirect loss के लिए compensation नहीं दिया जाएगा।

Mitigation rule

Court यह भी देखेगी कि injured party ने loss को कम करने के लिए reasonable steps लिए या नहीं।

Illustration

A, B को fixed price पर saltpetre supply करने का contract करता है लेकिन delivery नहीं करता। Market price बढ़ जाती है। B को contract price और market price के difference के बराबर compensation मिलेगा।

Illustration

A, B को ship hire करता है लेकिन B ship provide नहीं करता। A को alternative transport लेना पड़ता है जिससे extra cost आती है। B को वह extra cost compensate करनी होगी।

Illustration

A, B से rice खरीदने का contract करता है लेकिन बाद में purchase से मना कर देता है। B को A से loss का compensation मिलेगा।

Section 74 - Compensation for breach of contract where penalty stipulated

यदि contract में breach की स्थिति में कोई निश्चित amount या penalty पहले से निर्धारित हो, तो breach होने पर injured party reasonable compensation प्राप्त करने की हकदार होगी, चाहे actual loss prove किया गया हो या नहीं। लेकिन compensation उस amount से अधिक नहीं हो सकता जो contract में stipulated है।

Court यह निर्धारित करती है कि reasonable compensation कितना होगा।

यदि contract में default होने पर excessive interest rate का clause हो, तो उसे penalty माना जा सकता है और court reasonable interest ही allow करेगी।

Exception

Government bonds या public duty से संबंधित bonds, जैसे bail bond या recognisance, में breach होने पर पूरी stipulated amount देनी पड़ सकती है।

Illustration

A, B से promise करता है कि यदि वह 500 रुपये तय दिन पर pay नहीं करेगा तो 1000 रुपये देगा। A default करता है। B को automatically 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, court reasonable compensation determine करेगी जो 1000 से अधिक नहीं होगा।

Illustration

A promise करता है कि वह Calcutta में surgeon की practice नहीं करेगा और breach पर 5000 रुपये देगा। A practice शुरू कर देता है। Court reasonable compensation तय करेगी।

Illustration

A recognisance देता है कि वह court में appear होगा, penalty 500 रुपये है। A appear नहीं होता। उसे पूरे 500 रुपये देने होंगे।

Illustration

A bond देता है कि वह 1000 रुपये repay करेगा और default पर 75 प्रतिशत interest देगा। 75 प्रतिशत interest penalty माना जाएगा और court reasonable interest allow करेगी।

Illustration

A, B को 10 maunds grain देने का promise करता है और default पर 20 maunds देने की condition है। यह penalty clause है और B को केवल reasonable compensation मिलेगा।

Section 75 - Party rightfully rescinding contract is entitled to compensation

यदि कोई party contract को कानूनन सही तरीके से rescind करती है, तो वह उस damage या loss के लिए compensation प्राप्त करने की हकदार होती है जो contract के non-fulfilment के कारण हुआ है।

Simple meaning

यदि contract दूसरी party के breach के कारण सही तरीके से cancel किया गया है, तो cancel करने वाली party को compensation पाने का अधिकार होगा।

Example

A और B के बीच contract है कि B construction work करेगा। B काम शुरू नहीं करता और बार-बार delay करता है। A contract को rescind कर देता है। A को नए contractor को hire करने में हुए extra cost और delay से हुए loss का compensation B से मिलेगा।

Example

A, B को fixed date पर goods supply करने का contract करता है लेकिन delivery से पहले ही supply से मना कर देता है। B market से goods higher price पर खरीदता है। A उस extra loss का compensation देने के लिए liable होगा।

Chapter 7 to 123 (Repealed) Chapter - 8 Of indemnity and guarantee

Section 124 - "Contract of indemnity" defined

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह promise देता है कि वह उसे किसी loss से बचाएगा, और वह loss promisor के act से या किसी third person के act से हो सकता है, तो ऐसे contract को contract of indemnity कहा जाता है।

इस प्रकार के contract में एक व्यक्ति दूसरे को यह आश्वासन देता है कि यदि उसे किसी कारण से नुकसान होता है तो वह उसकी भरपाई करेगा। यह नुकसान promisor के स्वयं के कार्य से भी हो सकता है और किसी तीसरे व्यक्ति के कार्य से भी।

Simple meaning

जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है, वहाँ indemnity होती है। Contract of indemnity का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को संभावित नुकसान से सुरक्षा देना है।

Parties

Indemnifier वह व्यक्ति है जो नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। Indemnity-holder वह व्यक्ति है जिसे नुकसान से बचाया जाना है।

Example

A, B से कहता है कि यदि C तुम पर case करेगा और तुम्हें loss होगा, तो मैं उसकी भरपाई करूँगा। यह contract of indemnity है।

One-line exam point

Contract of indemnity is a contract to save the other from loss.



Section 125 - Rights of indemnity-holder when sued

यदि indemnity-holder पर कोई suit होता है और उसने promisor के orders का उल्लंघन नहीं किया है और authority के भीतर कार्य किया है, तो indemnity-holder indemnifier से निम्न तीन प्रकार की रकम recover कर सकता है।

Damages

जो damages उसे court में pay करने पड़े।

Costs

Suit को defend करने में जो legal costs आए, यदि उसने negligence नहीं की हो या promisor की authority से case defend किया हो।

Compromise amount

यदि उसने reasonable compromise में कोई amount pay की हो और वह promisor के orders के विरुद्ध न हो।

Example

A ने B को indemnify किया। C, B पर suit करता है। B court fees, lawyer fees या compromise amount pay करता है। B यह सब A से recover कर सकता है।

Section 126 - Contract of guarantee

जब एक व्यक्ति यह promise करता है कि किसी third person के default करने पर वह उसकी liability को पूरा करेगा, तो उसे contract of guarantee कहा जाता है।

Parties in guarantee, Surety वह व्यक्ति है जो guarantee देता है। Principal debtor वह व्यक्ति है जिसकी liability के लिए guarantee दी जाती है। Creditor वह व्यक्ति है जिसके प्रति debt या obligation है।

Example

A bank से loan लेता है। B कहता है कि यदि A loan repay नहीं करेगा तो मैं repay करूँगा। A principal debtor है, B surety है और bank creditor है।

Important point

Guarantee oral या written दोनों हो सकती है।

One-line exam point

A contract of guarantee is a contract to perform the promise of a third person in case of his default.

Section 127 - Consideration for guarantee

Principal debtor को दिया गया benefit surety के लिए sufficient consideration माना जाता है। Surety को अलग से benefit मिलना आवश्यक नहीं है।

Example

B, A से credit पर goods लेना चाहता है। A कहता है कि यदि C payment की guarantee देगा तो मैं goods दे दूँगा। C guarantee देता है। A का goods देना C की guarantee के लिए valid consideration है।

Section 128 - Surety's liability

Surety की liability principal debtor की liability के बराबर होती है जब तक contract में कुछ और न लिखा हो।

Simple meaning

Creditor चाहे तो सीधे surety से पूरा amount recover कर सकता है।

Example

Principal debtor bill pay नहीं करता। Creditor surety से principal amount, interest और charges recover कर सकता है।

Exam line

Liability of surety is co-extensive with that of the principal debtor.

Section 129 - Continuing guarantee

जो guarantee future transactions की series को cover करती है उसे continuing guarantee कहा जाता है।

Example

A guarantee देता है कि C द्वारा collect किया गया rent B को pay किया जाएगा। C बार-बार rent collect करता है। यह continuing guarantee है।

Example

A guarantee देता है कि tea supply का payment ₹100 तक cover करेगा। यदि supply ₹200 की हो जाती है और payment नहीं होती, तो A की liability ₹100 तक ही होगी।

Example

A 5 sacks flour की payment guarantee करता है। बाद में 4 sacks और दिए जाते हैं। यह continuing guarantee नहीं है और A liable नहीं होगा।

Section 130 - Revocation of continuing guarantee

Surety notice देकर continuing guarantee को future transactions के लिए revoke कर सकता है।

Simple meaning

Notice देने के बाद future transactions के लिए surety liable नहीं होगा, लेकिन past transactions के लिए liability बनी रहेगी।

Example

A, B को guarantee देता है कि वह C के bills pay करेगा। A creditor को notice देता है कि आगे से guarantee नहीं रहेगी। Notice के बाद के transactions पर A liable नहीं होगा।

Section 131 - Revocation of continuing guarantee by surety's death

Surety की death continuing guarantee को future transactions के लिए automatically revoke कर देती है, जब तक contract में इसके विपरीत intention न हो।

Simple meaning

Surety की death के बाद future transactions के लिए liability समाप्त हो जाती है, लेकिन death से पहले के transactions के लिए liability बनी रहती है।

Example

A, B को guarantee देता है कि वह C के loans repay करेगा। C, A के lifetime में ₹50,000 का loan लेता है। A की death के बाद C ₹30,000 का और loan लेता है। A की estate ₹50,000 के लिए liable होगी लेकिन ₹30,000 के लिए नहीं।

Exam line

Death of surety revokes a continuing guarantee only for future transactions.

Section 132 - Liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them

जब दो व्यक्ति किसी third person के प्रति jointly liable होते हैं और उनके बीच internal arrangement होता है कि उनमें से एक दूसरे के default पर pay करेगा, तो उस arrangement से creditor के rights पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

Simple meaning

Debtors के बीच का internal arrangement creditor के rights को प्रभावित नहीं करता।

Example

A और B, C के favour में joint promissory note बनाते हैं। A वास्तव में B का surety है और C को यह पता है। Payment default होने पर C, A से भी पूरा amount recover कर सकता है।

Exam line

Internal arrangement between debtors does not affect the liability towards the creditor.

यदि creditor और principal debtor के बीच contract की शर्तों में कोई material change surety की consent के बिना कर दिया जाता है, तो surety future transactions के लिए discharge हो जाता है। Surety केवल उसी risk के लिए liable होता है जिसके लिए उसने consent दी थी। यदि उस risk को उसकी अनुमति के बिना बदल दिया जाता है, तो वह आगे के लिए bound नहीं रहेगा।

Example

A, C की bank में B के conduct के लिए surety बनता है। बाद में C और B, A की consent के बिना B की salary बढ़ा देते हैं और overdraft loss का risk बदल देते हैं। B overdraft करता है और bank को loss होता है। A उस loss के लिए liable नहीं होगा।

Example

A, C को guarantee देता है कि B एक statutory office में misconduct नहीं करेगा। बाद में उस office की nature legislature द्वारा materially change कर दी जाती है। B misconduct करता है। A future liability से discharged हो जाएगा।

Example

B को clerk के रूप में fixed salary पर नियुक्त किया गया था और A surety था। बाद में salary system हटाकर commission system लागू कर दिया जाता है, बिना A की consent के। B misconduct करता है। A liable नहीं होगा।

Section 133- Discharge of surety by variance in terms of contract

यदि creditor और principal debtor के बीच contract की terms में कोई भी material change surety की consent के बिना कर दिया जाता है, तो surety subsequent transactions के लिए discharge हो जाता है।

इसका अर्थ यह है कि surety केवल उसी contract और उसी risk के लिए bound होता है जिसके लिए उसने अपनी consent दी थी। यदि contract की terms बदल दी जाती हैं और उस परिवर्तन के लिए surety की अनुमति नहीं ली गई है, तो surety भविष्य की liability से मुक्त हो जाता है।

Example

A, C की bank में B के conduct के लिए surety बनता है। बाद में C और B, A की consent के बिना B की salary और responsibility में material change कर देते हैं। बाद में B default करता है। A उस loss के लिए liable नहीं होगा क्योंकि contract की terms में surety की consent के बिना variation किया गया था।

Example

B को clerk के रूप में fixed salary पर नियुक्त किया गया था और A surety था। बाद में salary system हटाकर commission system लागू कर दिया गया, बिना A की consent के। B misconduct करता है। A liable नहीं होगा क्योंकि contract की terms materially change कर दी गई थीं।

Legal principle

Any variance in the terms of the contract made without the surety's consent discharges the surety as to subsequent transactions.

Section 134 - Discharge of surety by release or discharge of principal debtor

यदि creditor किसी contract, act या omission के द्वारा principal debtor को discharge कर देता है, तो surety भी discharge हो जाता है। Surety की liability principal debtor पर dependent होती है। जब principal debtor legally free हो जाता है, तो surety की liability भी समाप्त हो जाती है।

Example

A, C को guarantee देता है कि B goods का payment करेगा। B insolvent हो जाता है और C, B की property creditors को assign कर देता है और B को release कर देता है। B discharge हो जाता है और A भी discharge हो जाता है।

Example

A और B के बीच indigo उगाने का contract था और C surety था। B ने पानी की supply divert कर दी जिससे A performance नहीं कर सका। Performance creditor के act से impossible हो गई, इसलिए surety C discharge हो जाएगा।

Example

A ने B के लिए house बनाने का contract किया और C surety था। B ने timber supply नहीं किया। Creditor की omission के कारण surety C discharge हो जाएगा।

Section 135 - Discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue principal debtor

यदि creditor principal debtor से compromise करता है, उसे payment के लिए additional time देता है, या उस पर suit न करने का agreement करता है और यह सब surety की consent के बिना किया जाता है, तो surety discharge हो जाता है।

Example

A, B का surety है और C creditor है। C, B को payment के लिए extra time देता है लेकिन A की consent नहीं लेता। A suretyship से discharge हो जाएगा।

Section 136 - Surety not discharged when agreement to give time is made with third person

यदि creditor principal debtor को time देने का agreement किसी third person के साथ करता है और principal debtor के साथ directly नहीं, तो surety discharge नहीं होता।

Example

C के पास overdue bill है। A surety है और B principal debtor है। C, M नाम के third person से agreement करता है कि वह B को time देगा। इस स्थिति में A discharge नहीं होगा।

Section 137 - Creditor's forbearance to sue does not discharge surety

यदि creditor principal debtor पर suit नहीं करता या legal action लेने में delay करता है, तो केवल इसी कारण surety discharge नहीं होता, जब तक contract में इसका विपरीत प्रावधान न हो।

Example

B, C का debtor है और A surety है। Debt payable हो चुका है लेकिन C एक वर्ष तक B पर suit नहीं करता। केवल delay के कारण A surety के रूप में liable रहेगा।

Section 138 - Release of one co-surety does not discharge others

यदि एक ही debt के लिए कई co-sureties हैं और creditor उनमें से किसी एक surety को release कर देता है, तो बाकी sureties discharge नहीं होते। जिस surety को release किया गया है वह भी अन्य co-sureties के प्रति अपनी liability से मुक्त नहीं होता।

Example

A, B और C तीनों D के debt के sureties हैं। D, A को release कर देता है। B और C अभी भी liable रहेंगे।

Section 139 - Discharge of surety by creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy

यदि creditor ऐसा act करता है या ऐसा necessary act करने में omission करता है जिससे surety का principal debtor के विरुद्ध future remedy impair हो जाए, तो surety discharge हो जाता है।

Example

C के पास B की property security के रूप में थी जिससे surety A protected था। C negligence से उस property को कम मूल्य में बेच देता है। A surety discharge हो जाएगा।

Section 140 - Rights of surety on payment or performance

जब surety principal debtor की liability को pay कर देता है या obligation perform कर देता है, तो उसे creditor के वे सभी rights प्राप्त हो जाते हैं जो creditor को principal debtor के विरुद्ध प्राप्त थे। इसे doctrine of subrogation कहा जाता है।

Example

A ने B का debt C को pay कर दिया। अब A को C के सभी rights प्राप्त होंगे और वह B से वही amount recover कर सकता है।

Section 141 - Surety's right to benefit of creditor's securities

Surety को creditor के पास principal debtor के विरुद्ध जो भी securities होती हैं उनका benefit प्राप्त करने का अधिकार होता है, चाहे surety को उन securities के बारे में जानकारी हो या न हो। यदि creditor surety की consent के बिना किसी security को lose या destroy कर देता है, तो surety उतनी value तक discharge हो जाएगा।

Example

B का debt A ने guarantee किया है। C creditor के पास B की property security के रूप में थी। C उस security को release कर देता है। A उस property की value तक discharge हो जाएगा।

Section 142 - Guarantee obtained by misrepresentation invalid

यदि creditor द्वारा misrepresentation के माध्यम से surety से guarantee प्राप्त की गई हो, तो ऐसी guarantee invalid होती है।

Example

C, A से कहता है कि B एक honest employee है जबकि C जानता है कि B पहले fraud कर चुका है। A द्वारा दी गई guarantee invalid होगी।

Section 143 - Guarantee obtained by concealment invalid

यदि creditor किसी material fact को conceal करता है और उसी concealment के कारण surety guarantee देता है, तो ऐसी guarantee invalid होती है।

Example

A, B की honesty की guarantee देता है। C जानता था कि B पहले default कर चुका है लेकिन उसने A को यह बात नहीं बताई। Guarantee invalid होगी।

Section 144 - Guarantee on condition that creditor shall not act until co-surety joins

यदि कोई surety इस condition पर guarantee देता है कि creditor तब तक act नहीं करेगा जब तक कोई अन्य co-surety join न करे, और वह co-surety join नहीं करता, तो guarantee valid नहीं होती।

Example

A कहता है कि वह surety बनेगा यदि B भी co-surety बने। B join नहीं करता। A की guarantee invalid होगी।

Section 145 - Implied promise to indemnify surety

हर contract of guarantee में principal debtor का एक implied promise होता है कि वह surety को वह सारी राशि reimburse करेगा जो surety ने legally pay की है।

Example

B का debt C के प्रति था और A surety था। A ने debt और legal expenses pay किए। A, B से debt और expenses recover कर सकता है।

Example

यदि A बिना उचित कारण के unnecessary litigation करता है और हार जाता है, तो वह केवल debt recover कर सकता है, expenses नहीं।

Section 146 - Co-sureties liable to contribute equally

जब दो या अधिक persons एक ही debt के लिए sureties होते हैं, तो principal debtor के default करने पर सभी co-sureties बराबर contribution देने के लिए liable होते हैं, जब तक contract में कुछ और न लिखा हो।

Example

A, B और C, D के debt के sureties हैं और debt 3000 रुपये है। D payment नहीं करता। A, B और C प्रत्येक 1000 रुपये pay करेंगे।

Example

यदि contract में contribution proportion तय हो, जैसे A 1/4, B 1/4 और C 1/2, तो उसी proportion में payment होगी।

Section 147 - Liability of co-sureties bound in different sums

जब co-sureties अलग-अलग maximum amounts के लिए bound होते हैं, तो वे पहले equal contribution करेंगे लेकिन अपनी individual limit से अधिक liable नहीं होंगे।

Example

A की limit 10000, B की 20000 और C की 40000 है और default 30000 का है। A, B और C प्रत्येक 10000 pay करेंगे।

Example

यदि default 40000 है, तो A 10000, B 15000 और C 15000 pay करेंगे।

Example

यदि default 70000 है, तो A 10000, B 20000 और C 40000 pay करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति अपनी maximum limit तक liable है।

Chapter 9

Of Bailment

Section 148 - Bailment, Bailor and Bailee defined

Bailment वह संबंध है जिसमें एक व्यक्ति (Bailor) किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनी वस्तु (goods) दूसरे व्यक्ति (Bailee) को देता है। यह delivery एक contract के आधार पर होती है और शर्त यह होती है कि उद्देश्य पूरा होने पर वह वस्तु वापस की जाएगी या Bailor के निर्देशों के अनुसार निपटाई जाएगी।

Definitions

Bailor वह व्यक्ति है जो वस्तु देता है।

Bailee वह व्यक्ति है जिसे वस्तु दी जाती है।

Example

A अपनी बाइक B को मरम्मत के लिए देता है। मरम्मत पूरी होने के बाद B को बाइक A को वापस करनी होगी।

A Bailor है, B Bailee है और बाइक goods है।

Section 149 - Delivery to bailee, how made

Bailment में delivery दो तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है वस्तु को सीधे Bailee को दे देना। दूसरा तरीका है ऐसा कोई कार्य करना जिससे वस्तु Bailee या उसके authorised agent के कब्जे में आ जाए। Physical handover हमेशा आवश्यक नहीं होता।

Example

A अपनी कार B के garage में repair के लिए छोड़ देता है। यह delivery मानी जाएगी।

Example

A warehouse की चाबी B को दे देता है जिसमें goods रखे हैं। यह भी delivery मानी जाएगी।

Section 150 - Bailor's duty to disclose faults in goods bailed

Bailor का कर्तव्य है कि वह goods के ऐसे defects या faults बताए जो उसे पता हैं और जिनसे goods के use में danger या extra risk हो सकता है। यदि Bailor ऐसे defects नहीं बताता और Bailee को नुकसान हो जाता है, तो Bailor liable होगा।

Hire के case में Bailor liable होगा चाहे उसे defect का पता हो या नहीं।

Example

A जानता है कि घोड़ा dangerous है लेकिन B को नहीं बताता। B घायल हो जाता है। A नुकसान के लिए liable होगा।

Section 151 - Care to be taken by bailee

Bailee को goods की उतनी care लेनी होती है जितनी एक ordinary prudent person अपने खुद के goods की लेता है, यदि वे goods उसी quantity और value के हों।

Example

B के पास A की bike है। यदि B अपनी bike की तरह ही उसकी देखभाल करता है तो उसकी duty पूरी मानी जाएगी।

Section 152 - Bailee when not liable for loss, etc. of thing bailed

यदि Bailee ने Section 151 के अनुसार proper care ली है और कोई special contract भी नहीं है, तो Bailee goods के loss, destruction या deterioration के लिए liable नहीं होगा।

Example

Proper precautions के बावजूद flood में goods नष्ट हो जाते हैं। Bailee liable नहीं होगा।

Section 153 - Termination of bailment by bailee's act inconsistent with conditions

यदि Bailee goods का use bailment की conditions के खिलाफ करता है, तो Bailor bailment को terminate कर सकता है।

Example

A ने B को horse riding के लिए घोड़ा दिया। B उसे carriage में जोत देता है। A bailment समाप्त कर सकता है।

Section 154 - Liability of bailee making unauthorised use of goods bailed

यदि Bailee goods का use bailment की शर्तों के खिलाफ करता है, तो उस use से हुए सभी नुकसान के लिए Bailee liable होगा, चाहे नुकसान accident से ही क्यों न हुआ हो।

Example

Bike city use के लिए दी गई थी लेकिन Bailee highway racing करता है और accident हो जाता है। Bailee liable होगा।

Section 155 - Effect of mixture, with bailor's consent, of his goods with bailee's goods

यदि Bailee Bailor की consent से Bailor के goods को अपने goods के साथ मिला देता है, तो दोनों का उस mixture में proportionate share होगा।

Example

A के 40 kg गेहूं और B के 60 kg गेहूं मिलाए गए। A का 40 प्रतिशत और B का 60 प्रतिशत अधिकार रहेगा।

Section 156 - Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods can be separated

यदि Bailee Bailor की consent के बिना goods मिलाता है लेकिन goods अलग किए जा सकते हैं, तो ownership पहले जैसी ही रहेगी लेकिन separation का खर्च Bailee देगा।

Example

A के cotton bales को B अपने bales से बिना अनुमति मिलाता है। Separation का खर्च B देगा।

Section 157 - Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods cannot be separated

यदि goods ऐसे मिलाए जाएँ कि उन्हें अलग करना संभव न हो, तो Bailor को अपने goods के पूरे नुकसान का compensation मिलेगा।

Example

A का महंगा flour B अपने सस्ते flour में मिला देता है। A को compensation मिलेगा।

Section 158 - Repayment by bailor of necessary expenses

यदि bailment में Bailee को goods की देखभाल, transport या किसी अन्य purpose के लिए necessary expenses करने पड़ते हैं और उसे remuneration नहीं मिलनी है, तो Bailor को वह खर्च वापस करना होगा।

Example

A ने B को अपने पशु की देखभाल के लिए दिया। B ने दवा और खाना खरीदा। A को खर्च लौटाना होगा।

Section 159 - Restoration of goods lent gratuitously

Gratuitous bailment में Bailor किसी भी समय goods वापस मांग सकता है, भले ही time fixed हो। लेकिन यदि अचानक वापसी से Bailee को ऐसा नुकसान होता है जो उसे मिले लाभ से अधिक है, तो Bailor को उस excess loss का compensation देना होगा।

Section 160 - Return of goods bailed on expiration of time or accomplishment of purpose

Bailee का कर्तव्य है कि bailment का समय पूरा होने पर या purpose पूरा होने पर goods Bailor को वापस कर दे या Bailor के निर्देशों के अनुसार deliver करे।

Section 161 - Bailee's responsibility when goods are not duly returned

यदि Bailee की गलती से goods समय पर वापस नहीं किए जाते, तो उसके बाद होने वाले किसी भी loss, destruction या deterioration के लिए Bailee responsible होगा।

Example

Goods 1 July को लौटाने थे लेकिन delay हो गया। 2 July को आग लग गई। Bailee liable होगा।

Section 162 - Termination of gratuitous bailment by death

Gratuitous bailment Bailor या Bailee की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है।

Section 163 - Bailor entitled to increase or profit from goods bailed

यदि contrary contract न हो, तो goods से हुई वृद्धि या profit Bailor का होगा।

Example

A ने गाय B को दी। गाय ने बछड़ा दिया। B को गाय और बछड़ा दोनों A को लौटाने होंगे।

Section 164 - Bailor's responsibility to bailee

यदि Bailee को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि Bailor को bailment करने का अधिकार नहीं था या उसने गलत निर्देश दिए, तो Bailor नुकसान के लिए liable होगा।

Section 165 - Bailment by several joint owners

यदि कई joint owners मिलकर goods bail करते हैं, तो Bailee goods किसी एक joint owner को भी वापस दे सकता है जब तक contrary agreement न हो।

Section 166 - Bailee not responsible on re-delivery to bailor without title

यदि Bailor के पास goods का real title नहीं था और Bailee ने good faith में goods उसे वापस कर दिए, तो Bailee actual owner के प्रति liable नहीं होगा।

Section 167 - Right of third person claiming goods bailed

यदि कोई third person goods पर claim करता है, तो वह court से delivery रोकने और ownership decide कराने की मांग कर सकता है।

Section 168 - Right of finder of goods

Finder सामान्यतः reward के लिए suit नहीं कर सकता, लेकिन वह goods को तब तक retain कर सकता है जब तक reward न मिले। यदि reward घोषित किया गया है, तो finder reward के लिए suit कर सकता है।

Section 169 - When finder of thing commonly on sale may sell it

Finder goods को बेच सकता है यदि owner नहीं मिलता या owner lawful charges देने से मना कर देता है और goods perish होने की स्थिति में हों या charges goods के value के two-third तक पहुँच जाएँ।

Example

सड़क पर खराब होने वाला फल मिला और owner नहीं मिला। Finder उसे बेच सकता है।

Section 170 - Bailee's particular lien

यदि Bailee ने goods पर labour या skill लगाया है और remuneration अभी नहीं मिला है, तो वह goods को तब तक retain कर सकता है जब तक उसे payment न मिल जाए।

Example

A ने jeweller B को diamond cutting के लिए दिया। B payment मिलने तक diamond retain कर सकता है।

SECTION 171 - General Lien of Bankers, Factors, Wharfingers, Attorneys and Policy Brokers

कुछ विशेष व्यक्तियों को कानून द्वारा **general lien** का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है कि वे अपने पास रखी गई वस्तुओं को केवल उसी विशेष debt के लिए नहीं, बल्कि पूरे general balance of account की security के रूप में रोक सकते हैं, जब तक कि कोई विपरीत अनुबंध न हो।

General lien निम्न व्यक्तियों को प्राप्त होता है:

1. Bankers
2. Factors
3. Wharfingers
4. Attorneys of High Court
5. Policy Brokers

यदि कोई express contract इसके विपरीत नहीं है, तो ये लोग अपने पास bail की गई वस्तुओं को तब तक रोक सकते हैं जब तक ग्राहक का पूरा बकाया भुगतान न हो जाए।

Example

यदि किसी ग्राहक के बैंक में कई खातों में बकाया है, तो बैंक उसके documents या valuable securities को general balance के लिए रोक सकता है।

अन्य किसी व्यक्ति को general lien का अधिकार नहीं होता, जब तक कि ऐसा अधिकार किसी स्पष्ट अनुबंध द्वारा प्रदान न किया गया हो।

Section 172 - Pledge, Pawnor and Pawnee defined

Pledge एक विशेष प्रकार का bailment है जिसमें किसी debt के payment या किसी promise के performance की security के रूप में goods दिए जाते हैं।

Pawnor वह व्यक्ति है जो goods को security के रूप में देता है।

Pawnee वह व्यक्ति है जिसके पास goods security के रूप में रखे जाते हैं।

Example

A बैंक से loan लेने के लिए अपना सोना देता है। A pawnor है, बैंक pawnee है और सोना pledge है।

Section 173 - Pawnee's right of retainer

Pawnee को यह अधिकार होता है कि वह pledged goods को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक Principal debt का payment न हो जाए Debt पर interest न चुका दिया जाए, Goods की protection और preservation के लिए किए गए necessary expenses का भुगतान न हो जाए

Example

बैंक सोना तब तक वापस नहीं करेगा जब तक loan, interest और storage charges का भुगतान न हो जाए।

Section 174 - Pawnee not to retain for other debt or promise

सामान्यतः Pawnee pledged goods को केवल उसी debt या promise के लिए retain कर सकता है जिसके लिए pledge बनाया गया था। वह किसी अन्य debt के लिए उसे रोक नहीं सकता।

लेकिन यदि contract या circumstances से यह स्पष्ट हो कि future advances भी उसी pledge में शामिल होंगे, तो goods future debts के लिए भी security माने जा सकते हैं।

Example

A ने ₹50,000 के loan के लिए सोना गिरवी रखा। बाद में बैंक ने उसी व्यक्ति को ₹10,000 और advance दिया। यदि agreement से यह स्पष्ट है कि future advances भी covered हैं, तो बैंक सोना ₹60,000 तक रोक सकता है।

Section 175 - Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred

यदि Pawnee pledged goods की protection के लिए extraordinary expenses करता है, तो वह Pawnor से उन खर्चों की recovery कर सकता है।

Example

A ने बैंक में मशीन गिरवी रखी। मशीन की सुरक्षा के लिए बैंक को विशेष fire-safety measures करने पड़े। बैंक यह extraordinary expense Pawnor से मांग सकता है।

Section 176 - Pawnee's right where pawnor makes default

यदि Pawnor debt का payment या promise का performance निर्धारित समय पर नहीं करता, तो Pawnee के पास दो विकल्प होते हैं।

पहला, वह Pawnor के विरुद्ध suit file कर सकता है और pledged goods को collateral security के रूप में अपने पास रख सकता है।

दूसरा, वह reasonable notice देकर pledged goods को sell कर सकता है।

यदि sale से प्राप्त राशि debt से कम है तो Pawnor को बाकी राशि देनी होगी। यदि sale से अधिक राशि प्राप्त होती है तो surplus Pawnor को दिया जाएगा।

Example

A ने ₹1,00,000 के loan के लिए सोना गिरवी रखा। Default होने पर बैंक ने सोना ₹90,000 में बेच दिया। A को ₹10,000 और देना होगा।

Section 177 - Defaulting pawnor's right to redeem

यदि Pawnor default कर देता है, तब भी sale होने से पहले किसी भी समय वह:

1. Principal debt
2. Interest
3. और default से उत्पन्न expenses

का भुगतान करके pledged goods वापस ले सकता है।

Example

नीलामी से एक दिन पहले Pawnor पूरा भुगतान कर देता है। Pawnee को goods वापस करने होंगे।

Section 178 - Pledge by mercantile agent

यदि mercantile agent owner की consent से goods या documents of title के possession में है और ordinary course of business में goods pledge करता है, तो pledge valid होगा, यदि Pawnee ने good faith में काम किया हो और उसे agent की authority की कमी की जानकारी न हो।

Example

Owner ने agent को goods बेचने के लिए दिए। Agent ने बैंक में goods pledge कर दिए। यदि बैंक bona fide है, तो pledge valid होगा।

Section 178A - Pledge by person in possession under voidable contract

यदि कोई व्यक्ति goods का possession voidable contract के तहत प्राप्त करता है और contract अभी rescind नहीं हुआ है, तो वह goods pledge कर सकता है। Pawnee को valid title मिलेगा यदि उसने good faith में pledge accept किया हो और defect की जानकारी न हो।

Example

A ने fraud से B से car ली। B ने contract अभी rescind नहीं किया। A ने car बैंक में pledge कर दी। बैंक का pledge valid होगा।

Section 179 - Pledge where pawnor has only a limited interest

यदि Pawnor के पास goods में केवल limited interest है, तो वह goods pledge कर सकता है लेकिन pledge उसी limited interest तक valid होगा।

Example

A को B की car lease पर मिली। A ने car pledge कर दी। Pledge केवल lease interest तक valid होगा।

Section 180 - Suit by bailor or bailee against wrong-doer

यदि कोई third person bailment goods को damage करता है या उनसे wrongful possession ले लेता है, तो Bailor या Bailee दोनों में से कोई भी उस व्यक्ति के विरुद्ध suit file कर सकता है।

Example


A ने B को bike bail की। C ने bike चुरा ली। A या B दोनों C के विरुद्ध suit file कर सकते हैं।

Section 181 - Apportionment of relief or compensation obtained by such suits

Section 180 के तहत यदि किसी suit में compensation या relief प्राप्त होती है, तो उसे Bailor और Bailee के respective interests के अनुसार distribute किया जाएगा।

Example

यदि suit से ₹50,000 recover होते हैं, तो वह राशि Bailor और Bailee के अधिकारों के अनुसार बाँटी जाएगी।



Chapter 10

Agency

Appointment and authority of agents

SECTION 182 - Agent and Principal defined

Agent वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करता है या उसे third person के सामने represent करता है।
Principal वह व्यक्ति है जिसके लिए Agent कार्य करता है।

Example

A ने B को अपना मकान किराए पर देने का अधिकार दिया। इस स्थिति में B Agent है और A Principal है।

Section 183 - Who may employ agent

जो व्यक्ति major हो और sound mind का हो, वह किसी को Agent नियुक्त कर सकता है।

Example

25 वर्ष का मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना Agent नियुक्त कर सकता है।

Section 184 - Who may be an agent

Principal और third person के बीच किसी भी व्यक्ति को Agent बनाया जा सकता है। यदि Agent minor या unsound mind का है, तो उसके द्वारा किए गए contracts third person के लिए valid होंगे, लेकिन वह अपने Principal के प्रति personally liable नहीं होगा।

Example

A ने 16 वर्ष के B को Agent बनाया। Third person के साथ contract valid होगा, लेकिन B, A के प्रति personally liable नहीं होगा।

Section 185 - Consideration not necessary

Agency बनाने के लिए consideration आवश्यक नहीं है। Agency बिना किसी payment या reward के भी valid हो सकती है।

Example

A ने अपने मित्र B को बिना किसी भुगतान के अपना Agent बना दिया। यह agency फिर भी valid है।

Section 186 - Agent's authority may be express or implied

Agent की authority दो प्रकार की हो सकती है: express authority और implied authority।

1. Express authority वह authority है जो स्पष्ट रूप से दी जाती है।
2. Implied authority वह authority है जो circumstances, conduct या business practice से समझी जाती है।

Example

A ने B से कहा कि वह उसका मकान बेच सकता है। यह express authority है।

Section 187 - Definitions of express and implied authority

Express authority वह authority है जो words के माध्यम से दी जाती है, चाहे वे written हों या spoken।

Implied authority वह authority है जो circumstances, conduct या trade usage से निकलती है।

Example

A Calcutta में रहता है और Serampur में उसकी shop है। B shop manage करता है और goods purchase करता है। B के पास goods खरीदने की implied authority है।

Section 188 - Extent of agent's authority

Agent को वह सब काम करने का अधिकार होता है जो उसे दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक और lawful हों। यदि Agent को business चलाने की authority दी गई है, तो वह उस business में सामान्य रूप से किए जाने वाले सभी कार्य कर सकता है।

Example

A ने B को Bombay में debt recover करने के लिए agent बनाया। B legal proceedings शुरू कर सकता है और valid discharge दे सकता है।

Example

A ने B को ship-building business चलाने के लिए agent बनाया। B materials खरीद सकता है और workers employ कर सकता है।

Section 189 - Agent's authority in an emergency

Emergency की स्थिति में Agent को वह सब करने का अधिकार होता है जो एक ordinary prudent person अपने मामले में करता, ताकि Principal को loss से बचाया जा सके।

Example

Agent को पता चलता है कि goods खराब होने वाले हैं। वह उनकी मरम्मत करवा सकता है।

Example

A ने B को Cuttack में provisions भेजने को कहा, लेकिन रास्ते में goods खराब होने का खतरा है। B उन्हें Calcutta में ही बेच सकता है।

Section 190 - When agent cannot delegate

सामान्य नियम यह है कि Agent अपना कार्य किसी अन्य व्यक्ति को delegate नहीं कर सकता, यदि उसे वह कार्य स्वयं करने के लिए नियुक्त किया गया है। Delegation तभी संभव है जब trade custom या agency की nature इसकी अनुमति देती हो।

Example

A ने B को painting करने के लिए नियुक्त किया। B किसी अन्य painter को यह कार्य नहीं दे सकता।

Section 191 - Sub-agent defined

Sub-agent वह व्यक्ति होता है जिसे original agent ने appoint किया हो और जो agent के control में agency के कार्य करता हो।

Example

A Principal है।

B Agent है।

B ने C को agency के कार्य के लिए नियुक्त किया।

C Sub-agent है।

Section 192 - Representation of principal by sub-agent properly appointed

यदि sub-agent properly appointed है, तो third person के लिए sub-agent के acts principal के acts माने जाते हैं। Agent principal के प्रति responsible रहता है और sub-agent agent के प्रति responsible रहता है। Sub-agent सामान्यतः principal के प्रति responsible नहीं होता, except fraud या wilful wrong के cases में।

Example

B ने authority के साथ C को sub-agent बनाया। C ने mistake की। Third person के सामने A bound होगा, A B से जवाब मांगेगा और B C से जवाब मांगेगा।

Section 193 - Agent's responsibility for sub-agent appointed without authority

यदि agent बिना authority के sub-agent appoint करता है, तो principal उस sub-agent के acts से bound नहीं होगा। Agent उस sub-agent के acts के लिए principal के प्रति responsible होगा।

Example

B को sub-agent appoint करने का अधिकार नहीं था लेकिन उसने C को appoint कर दिया। C की mistake के लिए B responsible होगा और A responsible नहीं होगा।

Section 194 - Relation between principal and person duly appointed by agent

यदि agent को express या implied authority है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को appoint कर सकता है, तो वह व्यक्ति sub-agent नहीं बल्कि principal का agent माना जाएगा, उस कार्य की सीमा तक।

Example

A ने B को auction conduct करने के लिए solicitor बनाया। B ने C को auctioneer appoint किया। C, A का agent होगा।

Example

A ने B को debt recover करने के लिए appoint किया। B ने D solicitor को case handle करने के लिए appoint किया। D, A का agent होगा।

Section 195 - Agent's duty in naming such person

जब agent principal के लिए किसी अन्य व्यक्ति का selection करता है, तो उसे उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी एक prudent person अपने काम में करता है। यदि agent ने उचित सावधानी बरती है, तो चुने गए व्यक्ति की negligence के लिए agent liable नहीं होगा।

Example

A ने B को ship खरीदने के लिए appoint किया। B ने reputed surveyor को inspect करने के लिए appoint किया। Surveyor की negligence से ship defective निकला। B liable नहीं होगा।

Example

A ने B को goods sell करने के लिए दिए। B ने usual course में auctioneer appoint किया। Auctioneer insolvent हो गया। B liable नहीं होगा।

(RATIFICATION)

SECTION 196 - Right of person as to acts done for him without his authority (Ratification)

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के behalf पर बिना authority के कोई act करता है, तो उस व्यक्ति (Principal) के पास दो विकल्प होते हैं। वह उस act को ratify कर सकता है या उसे disown कर सकता है। यदि Principal उस act को ratify कर देता है, तो वह act उसी प्रकार माना जाएगा जैसे वह शुरू से ही authority के साथ किया गया हो।

Example

A ने बिना authority के B की ओर से goods खरीदे। बाद में B उस act को स्वीकार कर लेता है। यह act ऐसे माना जाएगा जैसे A को शुरू से authority प्राप्त थी।

Section 197 - Ratification may be expressed or implied

Ratification दो प्रकार की हो सकती है।

पहला, express ratification, जिसमें Principal सीधे शब्दों में act को स्वीकार करता है।

दूसरा, implied ratification, जिसमें Principal का conduct यह दिखाता है कि उसने act को स्वीकार कर लिया है।

Example

A ने बिना authority के B के लिए goods खरीदे। बाद में B उन goods को C को बेच देता है। यह implied ratification है।

Example

A ने बिना authority के B के पैसे C को loan दिए। B ने बाद में interest स्वीकार कर लिया। यह भी ratification माना जाएगा।

Section 198 - Knowledge requisite for valid ratification

Valid ratification के लिए यह आवश्यक है कि ratify करने वाले व्यक्ति को transaction के सभी material facts की जानकारी हो। यदि ratification बिना पूरी जानकारी के की गई है, तो वह valid नहीं मानी जाएगी।

Example

यदि B को यह जानकारी नहीं थी कि A ने illegal terms पर contract किया है, तो B की ratification valid नहीं मानी जाएगी।

Section 199- Effect of ratifying unauthorised act forming part of a transaction

यदि कोई unauthorised act किसी पूरी transaction का हिस्सा है और Principal उस act को ratify कर देता है, तो पूरी transaction ratify मानी जाएगी। Principal केवल transaction के एक भाग को स्वीकार नहीं कर सकता।

Example

A ने B की ओर से बिना authority के पूरा contract किया। B केवल delivery वाले act को स्वीकार करता है। इस स्थिति में पूरा contract ratify माना जाएगा।

Section 200 - Ratification of unauthorised act cannot injure third person

Ratification के द्वारा third person के rights को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। यदि ratification से किसी third person को नुकसान होगा, तो ऐसी ratification valid नहीं होगी।

Example

A ने बिना authority के B की ओर से C से goods मांगे। C ने देने से मना कर दिया। बाद में B ratify करता है। C पर damages की liability नहीं डाली जा सकती।

Revocation of authority

Section 201 - Termination of agency

Agency निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है:

1. Principal द्वारा authority revoke करने पर
2. Agent द्वारा agency renounce करने पर
3. Agency का business पूरा हो जाने पर
4. Principal या Agent की मृत्यु होने पर
5. Principal या Agent unsound mind हो जाने पर
6. Principal insolvent घोषित हो जाने पर

इन परिस्थितियों में agency समाप्त मानी जाती है।

Section 202 - Termination of agency where agent has an interest in subject matter

यदि Agent का agency के subject matter में स्वयं का interest है, तो Principal सामान्यतः उस agency को revoke नहीं कर सकता जब तक कोई express contract ऐसा करने की अनुमति न देता हो।

Example

A ने B को जमीन बेचने का अधिकार दिया और यह भी कहा कि B अपनी बकाया राशि sale price से ले सकता है। इस स्थिति में A agency revoke नहीं कर सकता।

Section 203 - When principal may revoke agent's authority

Principal agent की authority को किसी भी समय revoke कर सकता है, जब तक agent ने authority का प्रयोग करके Principal को bind नहीं किया हो।

Section 204 - Revocation where authority has been partly exercised

यदि agent ने authority का कुछ भाग already exercise कर लिया है, तो Principal उस authority को उस extent तक revoke नहीं कर सकता जिससे rights या liabilities उत्पन्न हो चुकी हों।

Example

A ने B को cotton खरीदने के लिए कहा। B ने cotton खरीद ली। A payment authority revoke नहीं कर सकता।

Section 205- Compensation for revocation by principal or renunciation by agent

यदि agency किसी निश्चित अवधि (fixed period) के लिए बनाई गई थी और principal या agent बिना पर्याप्त कारण (without sufficient cause) उसे उस अवधि के समाप्त होने से पहले ही समाप्त कर देता है, तो जिसने agency समाप्त की है उसे दूसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए compensation देना होगा।

इस नियम का उद्देश्य यह है कि यदि किसी निश्चित समय के लिए agency तय की गई थी, तो दोनों पक्ष उस अवधि तक संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य माने जाते हैं। यदि उनमें से कोई भी पक्ष बिना उचित कारण के उसे पहले समाप्त कर देता है, तो उसे दूसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई करनी होगी।

इस प्रकार compensation दो स्थितियों में दिया जा सकता है। यदि principal बिना पर्याप्त कारण के agency समाप्त करता है, तो उसे agent को compensation देना होगा। यदि agent बिना पर्याप्त कारण के agency छोड़ देता है, तो उसे principal को compensation देना होगा।

Example

A ने B को एक वर्ष के लिए अपना sales agent नियुक्त किया। छह महीने बाद A बिना किसी उचित कारण के B को हटा देता है। इस स्थिति में A को B को हुए नुकसान के लिए compensation देना होगा।

Example

A ने B को एक वर्ष के लिए अपना agent नियुक्त किया, लेकिन B बिना किसी पर्याप्त कारण के बीच में ही agency छोड़ देता है। इस स्थिति में B को A को हुए नुकसान के लिए compensation देना होगा।

Section 206 - Notice of revocation or renunciation

यदि principal agent की authority revoke करता है या agent agency को renounce (त्याग) करता है, तो दूसरे पक्ष को reasonable notice देना आवश्यक होता है। यदि बिना उचित notice दिए agency समाप्त कर दी जाती है और इससे दूसरे पक्ष को नुकसान होता है, तो जिसने agency समाप्त की है उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी।

Example

A ने B को 6 महीने के लिए अपना agent बनाया। 1 महीने बाद A बिना कोई notice दिए B को हटा देता है। इस स्थिति में A को B को हुए नुकसान के लिए compensation देना होगा।

Section 207 - Revocation and renunciation may be expressed or implied

Authority की समाप्ति express या implied दोनों प्रकार से हो सकती है।

Express revocation या renunciation तब होती है जब authority को स्पष्ट शब्दों में, चाहे written या oral, समाप्त किया जाता है। Implied revocation या renunciation तब होती है जब किसी व्यक्ति के conduct से यह स्पष्ट हो जाए कि authority समाप्त कर दी गई है।

Example

A ने B को अपना घर किराए पर देने का अधिकार दिया। बाद में A स्वयं वह घर किसी और को किराए पर दे देता है। इस स्थिति में B की authority impliedly revoke मानी जाएगी।

Section 208 - When termination of agent's authority takes effect

Agent की authority की termination agent और third person के लिए अलग-अलग समय पर प्रभावी होती है।

Agent के लिए termination तब प्रभावी होती है जब उसे termination की जानकारी मिल जाती है।

Third person के लिए termination तब प्रभावी होती है जब उन्हें termination की जानकारी मिल जाती है।

Termination की जानकारी मिलने से पहले agent द्वारा किए गए acts principal पर binding रहते हैं।

Example

A ने letter द्वारा B की authority revoke की। letter मिलने से पहले B ने goods बेच दिए। यह sale A पर binding होगी।

Example

यदि third person C को termination की जानकारी नहीं थी और उसने agent के साथ transaction किया, तो वह transaction valid रहेगा।

Example

A की मृत्यु हो जाती है। B को इसकी जानकारी नहीं थी और उसने C को payment कर दिया। यह payment valid मानी जाएगी।

Section 209 - Agent's duty on termination by principal's death or insanity

यदि agency principal की मृत्यु या insanity के कारण समाप्त हो जाती है, तो agent का कर्तव्य है कि वह principal के representatives के हितों की रक्षा के लिए reasonable steps ले।

Example

A की मृत्यु हो जाती है और B के पास A का माल है। B को उस माल की सुरक्षा करनी होगी ताकि वह principal के legal representatives को सुरक्षित रूप से सौंपा जा सके।

Section 210 - Termination of sub-agent's authority

जब agent की authority समाप्त हो जाती है, तो उसी के द्वारा नियुक्त sub-agent की authority भी समाप्त हो जाती है, जब तक कि कानून या contract में कुछ और प्रावधान न हो।

Example

A principal है, B agent है और C sub-agent है। यदि B की authority समाप्त हो जाती है, तो C की authority भी समाप्त हो जाएगी।

Agent's duty to principle

Section 211 - Agent's duty in conducting principal's business

Agent का कर्तव्य है कि वह principal के business को principal के निर्देशों के अनुसार संचालित करे। यदि principal ने कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं, तो agent को उस स्थान के व्यापारिक प्रचलन (custom of trade) के अनुसार कार्य करना चाहिए।

यदि agent principal के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है और उससे principal को नुकसान होता है, तो agent उस नुकसान की भरपाई करेगा। यदि agent को उस कार्य से कोई लाभ प्राप्त होता है, तो उसे उस लाभ का हिसाब principal को देना होगा।

Example

A ने B को निर्देश दिया कि माल ₹100 प्रति किलो से कम में न बेचे। B ने ₹90 प्रति किलो में बेच दिया। B इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।

Section 212 - Skill and diligence required from agent

Agent का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य में वही skill और diligence अपनाए जो ऐसे व्यवसाय में सामान्यतः अपेक्षित होती है। उसे उचित सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। यदि agent की लापरवाही, कौशल की कमी या गलत आचरण के कारण principal को direct नुकसान होता है, तो agent उस नुकसान की भरपाई करेगा।

Agent remote या indirect नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता।

Example

A ने B को पैसे भेजने को कहा। B ने देर कर दी और पैसा भेजने वाला व्यक्ति दिवालिया हो गया। B को पैसा और उस पर ब्याज देना होगा, लेकिन exchange rate के बदलने से हुए अतिरिक्त नुकसान के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा।

Example

Agent ने बिना जांचे credit पर माल बेच दिया और buyer insolvent हो गया। Agent नुकसान की भरपाई करेगा।

Example

Insurance broker ने policy में आवश्यक clauses शामिल नहीं किए और जहाज डूब गया। Broker नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।

Example

Agent ने समय पर cotton नहीं भेजा और बाद में कीमत बढ़ गई। Agent केवल उसी समय के संभावित लाभ की भरपाई करेगा, बाद में बढ़ी कीमत के लिए नहीं।



Section 213 - Agent's accounts

Agent का दायित्व है कि वह principal की मांग पर agency के कार्यों से संबंधित सही और पूरा account प्रस्तुत करे।

Example

B ने A के लिए माल बेचा। यदि A हिसाब मांगता है, तो B को पूरा account देना अनिवार्य होगा।



Section 214 - Agent's duty to communicate with principal

यदि agency के कार्य में कोई कठिनाई या संदेह उत्पन्न हो, तो agent का कर्तव्य है कि वह उचित प्रयास करके principal से संपर्क करे और निर्देश प्राप्त करने की कोशिश करे।

Example

Agent को संदेह है कि माल बेचने से नुकसान हो सकता है। उसे पहले principal से संपर्क करके निर्देश लेना चाहिए।

Section 215 - Right of principal when agent deals on his own account without consent

यदि agent agency के business में principal की जानकारी और consent के बिना अपने ही account पर transaction करता है और material facts छुपाता है या transaction principal के लिए हानिकारक है, तो principal उस transaction को repudiated कर सकता है।

Example

Agent ने principal का माल स्वयं सस्ते में खरीद लिया और बाद में उसे महंगे दाम पर बेच दिया। Principal उस transaction को रद्द कर सकता है।

Section 216 - Principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account

यदि agent agency के business में principal की जानकारी के बिना अपने लाभ के लिए कोई transaction करता है, तो उस transaction से प्राप्त लाभ principal का होगा।

Example

A ने B को घर खरीदने के लिए कहा। B ने कहा कि घर उपलब्ध नहीं है लेकिन स्वयं वह घर खरीद लिया। A, B को बाध्य कर सकता है कि वह वही घर उसी कीमत पर A को दे।

Section 217 - Agent's right of retainer out of sums received on principal's account

Agent को यह अधिकार होता है कि वह principal की ओर से प्राप्त रकम में से अपने वैध दावों की राशि पहले काट ले। इन दावों में उसके आवश्यक expenses, उसके द्वारा दिया गया advance तथा उसकी remuneration या commission शामिल होते हैं। इन राशियों को काटने के बाद जो शेष राशि बचती है, वह principal को देनी होती है।

Example

Agent ने principal के लिए ₹1,00,000 वसूले। यदि उसके खर्च ₹10,000 हैं और commission ₹5,000 है, तो agent ₹15,000 काटकर शेष ₹85,000 principal को देगा।

Section 218 - Agent's duty to pay sums received for principal

Agent का कर्तव्य है कि वह principal की ओर से प्राप्त सभी धनराशि का हिसाब रखे और Section 217 में बताए गए deductions करने के बाद शेष राशि principal को दे।

Example

Agent ने principal के लिए ₹50,000 प्राप्त किए। अपने खर्च और commission काटने के बाद बाकी पूरी राशि principal को देना agent का कर्तव्य है।

Section 219 - When agent's remuneration becomes due

सामान्य नियम यह है कि agent की remuneration तब देय होती है जब वह अपना कार्य पूरा कर लेता है। जब तक agent ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तब तक remuneration का दावा नहीं किया जा सकता।

हालाँकि यदि agent ने sale से संबंधित अपना कार्य पूरा कर दिया है, जैसे कि goods बेच दिए हैं, तो वह उस sale से प्राप्त धन में से अपनी remuneration रोक सकता है, भले ही पूरा व्यापार अभी समाप्त न हुआ हो।

Example

Agent को 100 वस्तुएँ बेचने का कार्य दिया गया। उसने 60 वस्तुएँ बेच दीं। इस स्थिति में वह उन 60 वस्तुओं की sale से प्राप्त धन में से अपनी remuneration रोक सकता है।

Section 220 - Agent not entitled to remuneration for business misconducted

यदि agent agency के कार्य में misconduct, negligence या dishonesty करता है, तो उस हिस्से के कार्य के लिए उसे कोई remuneration नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि principal को नुकसान हुआ है, तो agent को उस नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।

Example

A ने B को ₹1,00,000 निवेश करने के लिए दिए। B ने ₹90,000 उचित रूप से निवेश किए, लेकिन ₹10,000 गलत security में लगा दिए जिससे नुकसान हुआ। इस स्थिति में B को ₹90,000 वाले भाग पर remuneration मिल सकता है, लेकिन ₹10,000 वाले भाग पर कोई remuneration नहीं मिलेगा और उसे हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

Section 221 - Agent's lien on principal's property

यदि कोई अलग contract नहीं है, तो agent को यह अधिकार होता है कि वह principal के goods, documents, papers या अन्य property को अपने पास तब तक रोक कर रखे जब तक उसकी commission, expenses या services की राशि पूरी तरह प्राप्त न हो जाए या accounts settle न हो जाएँ। इस अधिकार को agent's lien कहा जाता है।

Example

Agent ने principal के लिए कार्य किया और उसकी ₹20,000 commission बाकी है। Agent principal के माल को तब तक रोक सकता है जब तक यह राशि उसे प्राप्त न हो जाए।

Section 222 - Agent to be indemnified against consequences of lawful acts

यदि agent principal के आदेश पर, अपनी authority के भीतर कोई lawful act करता है और उस कार्य के कारण उसे damages, costs या legal expenses उठाने पड़ते हैं, तो principal का कर्तव्य है कि वह agent को indemnify करे।

Example

A के कहने पर B ने C से contract किया। बाद में A ने माल नहीं दिया और C ने B पर case कर दिया। B ने case लड़ने में खर्च किया। A को B को damages और costs का भुगतान करना होगा।

Section 223 - Agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith

यदि agent principal के निर्देश पर good faith में कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बाद में किसी third person के अधिकार प्रभावित हो जाते हैं, तब भी principal agent को indemnify करने के लिए बाध्य होगा।

Example

A ने court officer से कहा कि B का माल जब्त कर लो। Officer ने good faith में माल जब्त किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह माल C का था। C ने officer पर case किया। A को officer को indemnify करना होगा।

Section 224 - Non-liability of employer of agent to do a criminal act

यदि principal agent को कोई criminal act करने के लिए कहता है, तो उस कार्य के परिणामों के लिए principal agent को indemnify करने के लिए बाध्य नहीं होगा। कानून किसी अपराध के लिए indemnity को मान्यता नहीं देता।

Example

A ने B से कहा कि C की जाली रसीद बना दो। B पकड़ा गया और सज़ा हुई। B यह नहीं कह सकता कि A उसे उस अपराध के लिए indemnify करे।

Section 225 - Compensation to agent for injury caused by principal's neglect

यदि agent को agency के कार्य करते समय principal की negligence या skill की कमी के कारण injury या नुकसान होता है, तो principal को agent को compensation देना होगा।

Example

A ने B को निर्माण कार्य पर लगाया। Scaffolding गलत तरीके से लगाई गई और B घायल हो गया। A को B को compensation देना होगा।

Section 226 - Enforcement and consequences of agent's contracts

Agent द्वारा principal की authority के अंतर्गत किए गए contracts ऐसे माने जाते हैं जैसे principal ने स्वयं किए हों। ऐसे contracts से उत्पन्न rights और liabilities सीधे principal पर लागू होते हैं।

Example

यदि agent principal की ओर से goods खरीदता है, तो payment प्राप्त करने का अधिकार principal को होगा।

Example

यदि agent principal की ओर से किसी third person से payment लेता है, तो उस third person की liability समाप्त हो जाती है।

Section 227 - Principal how far bound when agent exceeds authority

यदि agent authority के भीतर और authority से बाहर दोनों प्रकार के acts करता है और authorised तथा unauthorised भागों को अलग किया जा सकता है, तो principal केवल authorised भाग के लिए bound होगा।

Example

A ने B को जहाज का insurance ₹4,000 तक कराने को कहा। B ने जहाज का insurance ₹4,000 में कराया और cargo का insurance भी करवा दिया। A केवल जहाज वाले insurance के लिए bound होगा।

Section 228 - Principal not bound when excess of agent's authority is not separable

यदि agent authority से अधिक कार्य करता है और authorised तथा unauthorised भागों को अलग नहीं किया जा सकता, तो principal पूरे transaction से bound नहीं होगा।

Example

Agent को 100 units खरीदने की authority थी, लेकिन उसने 300 units एक ही contract में खरीद लिए और contract को अलग नहीं किया जा सकता। Principal पूरे contract को अस्वीकार कर सकता है।

Section 229 - Consequences of notice given to agent

Agent को agency के business के दौरान जो notice, information या knowledge प्राप्त होती है, उसे कानून में ऐसा माना जाता है जैसे principal को प्राप्त हुई हो।

Example

A ने B को C से goods खरीदने भेजा। Transaction के दौरान A को पता चला कि goods वास्तव में D के हैं। भले ही B को यह जानकारी न हो, फिर भी कानून मानता है कि principal को knowledge थी।

Section 230 - Agent cannot personally enforce, nor be bound by contracts

सामान्य नियम यह है कि agent द्वारा principal की ओर से किया गया contract agent पर personal liability नहीं डालता और agent स्वयं उस contract को enforce भी नहीं कर सकता।

Exceptions

Agent personally liable हो सकता है जब principal foreign merchant हो, जब principal का नाम disclose न किया गया हो, या जब disclosed principal को legally sue नहीं किया जा सकता।

Section 231 - Rights of parties when agent not disclosed

यदि कोई व्यक्ति agent से contract करता है और उसे यह जानकारी नहीं होती कि वह agent है, तो बाद में principal उस contract की performance मांग सकता है। लेकिन third person को वही rights मिलेंगे जो agent के विरुद्ध उपलब्ध होते।

यदि contract पूरा होने से पहले principal सामने आ जाता है और third person यह सिद्ध कर देता है कि यदि उसे principal की जानकारी होती तो वह contract नहीं करता, तो वह contract को अस्वीकार कर सकता है।

Section 232 - Performance of contract with agent supposed to be principal

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से contract करता है और उसे यह जानकारी नहीं होती कि सामने वाला व्यक्ति किसी principal का agent है, तो बाद में principal उसी प्रकार contract की performance मांग सकता है जैसी agent और third person के बीच संभव थी। लेकिन principal, third person की उस स्थिति को खराब नहीं कर सकता जिसमें वह contract के समय था।

Illustration

A पर B का ₹500 बकाया है। A, C का agent बनकर B को ₹1000 का चावल बेच देता है। B को यह पता नहीं कि A agent है। इस स्थिति में C, B को यह नहीं कह सकता कि वह A के ₹500 को set-off न करे।

Key concept

Hidden agency की स्थिति में third person को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।

Section 233 - Right of person dealing with agent personally liable

जहाँ कानून के अनुसार agent personally liable है, वहाँ third person को यह अधिकार होता है कि वह agent, principal या दोनों को liable ठहरा सकता है।

Example

A, B से 100 गांठ कपास खरीदने का contract करता है। बाद में पता चलता है कि B वास्तव में C का agent था। इस स्थिति में A को यह अधिकार है कि वह केवल B को sue करे, या केवल C को sue करे, या दोनों को sue करे।

Section 234 - Consequence of inducing belief of exclusive liability

यदि किसी व्यक्ति ने agent या principal को यह विश्वास दिलाया है कि केवल वही liable होगा, तो बाद में वह दूसरे व्यक्ति को liable नहीं ठहरा सकता।

Example

A, agent से contract करते समय स्पष्ट कहता है कि वह केवल principal को liable मानेगा। बाद में A agent को liable नहीं ठहरा सकता।

Section 235 - Liability of pretended agent

यदि कोई व्यक्ति बिना authority के स्वयं को किसी का agent बताकर third person से contract करता है और बाद में alleged principal उस act को ratify नहीं करता, तो वह व्यक्ति third person को हुए नुकसान के लिए personally liable होगा।

Example

A स्वयं को B का agent बताकर C से contract करता है, लेकिन B उस act को ratify नहीं करता। इस स्थिति में C को हुए नुकसान के लिए A जिम्मेदार होगा।

Section 236 - Person falsely contracting as agent not entitled to performance

जो व्यक्ति झूठा agent बनकर contract करता है, वह उस contract की performance मांगने का अधिकार नहीं रखता।

Example

A स्वयं को agent बताकर contract करता है, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए contract कर रहा था। इस स्थिति में A उस contract को enforce नहीं कर सकता।

Section 237 - Liability of principal inducing belief of authority

यदि principal के words या conduct के कारण third person को यह विश्वास हो जाता है कि agent के पास authority है, तो principal उस act से bound होगा, भले ही agent के पास वास्तव में authority न हो।

Example

A, B को अपने goods बेचने देता है और secretly price limit तय कर देता है। C को इस limit की जानकारी नहीं है और B कम कीमत पर goods बेच देता है। इस स्थिति में A contract से bound होगा।

Section 238 - Effect of misrepresentation or fraud by agent

यदि agent अपने business के दौरान और अपनी authority के भीतर misrepresentation या fraud करता है, तो उसका प्रभाव ऐसा माना जाएगा जैसे principal ने स्वयं किया हो। ऐसे मामलों में contract voidable हो सकता है।

लेकिन यदि fraud या misrepresentation authority के बाहर किया गया है, तो principal उस act से bound नहीं होगा।

Example

A, B का agent बनकर C को goods बेचते समय गलत जानकारी देता है। C उस contract को voidable बना सकता है। लेकिन यदि A authority के बाहर fraud करता है, तो principal liable नहीं होगा।

आभार एवं धन्यवाद

इस पुस्तक को पढ़ने और अपने अध्ययन का हिस्सा बनाने के लिए मैं सभी पाठकों, विधि के विद्यार्थियों तथा न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

इस पुस्तक का उद्देश्य कानून के प्रावधानों को सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि विद्यार्थी, शोधकर्ता और विधि के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति विषय को आसानी से समझ सकें तथा अपने अध्ययन और परीक्षाओं की तैयारी को अधिक प्रभावी बना सकें।

कानून एक सतत विकसित होने वाला विषय है, और इसके अध्ययन तथा समझ में अनेक विद्वानों, लेखकों और न्यायिक निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन सभी के कार्यों से प्रेरणा लेकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है।

आशा है कि यह पुस्तक आपके अध्ययन, समझ और विधि के प्रति रुचि को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी। भविष्य के संस्करणों को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव, प्रतिक्रियाएँ और मार्गदर्शन सदैव आमंत्रित हैं।


आपके विश्वास और सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद।

अधिवक्ता अमित आर्य

Founder: Hindi Law Shorts

Website: <https://hindilawshorts.in>

Email: Info@HindiLawShorts.in



Amit Arya

Hindi Law Shorts